



राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

OF Ragging and Other Mischiefs

Son of the Air Chief told the officer, "Sir, please don't disturb him. He is so very exhausted and needs rest." The officer was convinced and told him to let him know if there was any problem and walked away.

5 best methods to teach language skills to your toddler



ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाले नाइट पैरट किसी अजूबे से कम नहीं हैं। जमीन पर विचरण करने वाले ये पक्षी उड़ने में भी सक्षम हैं। रात होने पर ही इनकी आवाज सुनाई देती है। करीब सौ वर्षों तक इन्हें विलुप्त माना जा रहा था। नाइट पैरट विश्व के सबसे रहस्यमय पक्षियों में एक हैं। सबसे पहले 1845 में रिकॉर्ड किए गए इन पक्षियों का अंतिम जीवित नमूना वैस्ट ऑस्ट्रेलिया में 1912 में संग्रहित किया गया था। उसके बाद ये गायब हो गए और 1912 से 1979 के बीच इनकी कोई पुष्टि नहीं हुई। फिर, सन् 2013 में वाइल्ड-लाइफ फोटोग्राफर जॉन युंग ने वैस्टर्न क्वीन्सलैंड में एक पैरट के कई फोटो लिए और कुछ सैकेण्ड का वीडियो फुटेज भी रिकॉर्ड किया। कई वर्षों की मेहनत व खोज के बाद अंततः जॉन को बहुत करीब से एक नाइट पैरट देखने को मिला। इस खोज को लेकर विश्वभर में इतनी उत्सुकता पैदा हो गई कि, सुरक्षा के मद्देनजर इनकी वास्तविक लोकेशन को उजागर नहीं किया गया। अब पिछले कई वर्षों में परभक्षी बिल्लियों और जंगल में आग लगने की घटनाओं के कारण इनका प्राकृतिक आवास घट गया है और माना जाता है कि, अब ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। हाल ही में गिब्सन डैजर्ट के एक दूरस्थ क्षेत्र में किवाकरा रेंजर टीम ने इनकी आवाजें रिकॉर्ड की हैं। यह पांचवीं टीम है जिसने इन पक्षियों की आवाजें रिकॉर्ड करने में सफलता पाई है। इनकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग संरक्षण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जिससे इनका वर्तमान आवास क्षेत्र चिह्नित किया जा सकता है। एक बार जब वहां से पर्याप्त रिकॉर्डिंग प्राप्त हो जाएगी तो नाइट पैरट का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक संरक्षण के लिए विशिष्ट स्थानों को चिह्नित कर पाएंगे। इस वर्ष किवाकरा रेंजर्स ने 5 अलग-अलग क्षेत्रों में साउथ रिकॉर्डिंग स्टेशन बनाए और रात में रिकॉर्ड की हुई आवाजें नाइट पैरट विशेषज्ञ डॉ. निक लीजबर्ग को भेजीं। इस पक्षी की आवाज एकदम अलग है इसलिए इसे पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है। डॉ. लीजबर्ग ने कहा, जैसे ही हमें नक्शे पर नया बिंदु नज़र आता तो इसका अर्थ होता कि, नाइट पैरट की रेंज में कुछ और विस्तार हो गया है। यह जानकारी काफी महत्वपूर्ण है।

'नीट पेपर लीक, 23 लाख विद्यार्थियों के साथ धोखा' 'मैं आरक्षण के लिये सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगायी गयी 50 प्रतिशत की सीमा हटवा दूंगा'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 मई। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को हुए नीट पेपर लीक की कड़ी आलोचना की और इसे 23 लाख बच्चों व उनके परिवार के साथ विश्वासघात बताया। उन्होंने ट्वीट किया कि मोदी

राहुल गांधी ने कहा कि, नीट पेपर लीक होने से 23 लाख विद्यार्थियों व उनके परिजनों के साथ धोखा हुआ है, इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो पेपर लीक पर कड़े कानून बनाए जाएंगे।

सरकार उन युवाओं के लिए अभिशाप बन गई है जो 12वीं कक्षा पास करने के बाद मैट्रिकल कॉलेज में प्रवेश का सपना देख रहे थे या सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे थे। राहुल ने कहा, भाजपा सरकार गत दस साल से सरकार चला रही है और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'जेल का जवाब वोट से देंगे'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 मई। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी (आप) के चुनाव प्रचार गीत "जेल का जवाब वोट से" को मंजूरी दे दी है, जो भी बिना किसी परिवर्तन के। आप के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे ने

आप पार्टी के इस चुनाव प्रचार गीत को चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद आप नेता दिलीप पांडे ने कहा कि, हम आयोग के निर्देशों के आगे नहीं झुकेंगे।

सोमवार को बताया कि वे किस तरह से अपने पक्ष के लिए लड़ेंगे। उन्होंने कहा हम भाजपा के घटिया प्रयासों के आगे नहीं झुकेंगे। पार्टी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी का जवाब वोट से देंगे। पार्टी ने गुंडागर्दों के खिलाफ वोट देने की अपील भी की है।

राहुल गांधी ने रतलाम में आयोजित आमसभा में यह ऐलान किया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 मई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक बड़ी घोषणा करते हुए वादा किया कि उनकी पार्टी और गठबंधन जातिगत आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत सीमा को हटाने तथा दलित, पिछड़ों और आदिवासी समुदायों का आरक्षण कोटा बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। मध्यप्रदेश के रतलाम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि, "यह चुनाव संविधान बचाने की खातिर लड़ा जा रहा है। भाजपा और आर.एस.एस. संविधान को बदलना, समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस और इण्डिया गठबंधन इसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। राहुल ने संविधान की एक प्रति दिखाते हुए कहा कि, "इस संविधान ने आपको जल, जंगल और ज़मीन के अधिकार दिए हैं। नरेन्द्र मोदी इन अधिकारों को समाप्त

करना चाहते हैं। वे पूरी सत्ता अपने हाथ में रखना चाहते हैं।" उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने घोषणा की है कि यदि वे जीते तो संविधान को बदल देंगे। इसीलिए इन्होंने "400 सीटों" का नारा दिया, लेकिन 4 सीटों छोड़िए, इन लोगों को 150 सीटें

चंद्रबाबू नायडू ने भी अफलातूनी प्रचार अभियान चलाया कि, सरकार परिवार की विवादित भूमि अधिग्रहित कर लेगी

-लक्ष्मण वैकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 मई। भाजपा जिस प्रकार से कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रही है कि यह लोगों के मंगलसूत्र और पैसा छीन कर गरीब मुसलमानों को दे देगी। अब भाजपा की सहयोगी तेलुगूदेसम पार्टी ने जगन मोहन रेड्डी सरकार पर आरोप लगाया है। लैंड टाइटलिंग एक्ट के जरिए यह सरकार आम जनता की ज़मीन-जायदाद हथिया लेगी। पता चला है कि इस मुद्दे पर चल रहे टैलिफोनिक अभियान के पीछे तेलुगूदेसम है। इनमें फोन करने वाला व्यक्ति बताता है कि लैंड टाइटलिंग एक्ट कुछ ही दिनों में लागू हो जाएगा और इसके बाद आपकी सारी ज़मीन सरकार वापस लेगी। सत्तारूढ़ पार्टी वाय.एस.आर.सी.पी. ने इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है और साइबर सैल से एक्शन लेने को कहा है।

लेकिन गाँवों और कस्बों में लोगों में डर सा व्याप्त होने लगा है कि सरकार उन लोगों की ज़मीन व घर छीन लेगी जो उन्हें विरासत में मिली है। डर यह है कि कागजी कार्यवाही बेहद भ्रामक है कि कुछ लोग तो अपनी खानदानी जायदाद से बर्चस्व हो जाएंगे। असल में सरकार लैंड रिकॉर्ड को "डिजाटलाइज" करने जा रही है कानून के माफत, इसलिए लोगों से कागजात मांग रही है, पर इन कागजातों की वापसी की प्रक्रिया बेहद जटिल है। इसलिए जनता के डर बढ़ गया है। आंध्र प्रदेश में 13 मई को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। तेलुगूदेसम के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू सितम्बर 2022 में आंध्र विधानसभा पारित लैंड टाइटलिंग एक्ट को अपने प्रचार अभियान में लैंड ग्रीबिंग (कब्जा) एक्ट बता रहे हैं। जन सेना के प्रमुख पवन कल्याण भी फोन कॉल में कही गई बात दोहराते हुए कहते हैं कि

जगन मोहन रेड्डी फिर से सत्ता में आए तो कानून का दुरुपयोग कर जनता की ज़मीन जायदाद छीन लेंगे। उन्होंने कहा

कि अगर तेलुगूदेसम और जन सेना की सरकार सत्ता में आई तो वे इस कानून को खत्म कर देंगे।

रायबरेली से राहुल गांधी के नामांकन को चुनौती

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 मई। चुनाव आयोग ने रायबरेली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गाँधी के नामांकन को लेकर दो शिकायतें स्वीकार की हैं, एक तो उनकी ब्रिटिश नागरिकता और हाल ही में मानहानि के केस में उन पर सिद्ध हुए

■ यह चुनौती किसी अनिच्छुद प्रताप सिंह ने दो आधारों पर दी है, एक तो राहुल की ब्रिटिश नागरिकता, दूसरे हाल ही में मानहानि केस में उनका दोषी साबित होना।

आरोप को लेकर। शिकायतकर्ता अनिच्छुद प्रताप सिंह ने एडवोकेट अशोक पाण्डे के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है। पाण्डे ने रायबरेली के रिटर्निंग ऑफिसर के पास शिकायत दर्ज करवाकर राहुल के नामांकन को रद्द करने की मांग की है। एडवोकेट पाण्डे ने कहा, "पहले तो, राहुल गाँधी को दो साल की सजा मिली है, जिसके कारण वो चुनाव लड़ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जे.पी. नड्डा व मीडिया इंचार्ज अमित मालविया के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करायी कांग्रेस ने

कर्नाटक में दर्ज इस एफ.आई.आर. में भाजपा पर आरोप लगाया गया है कि, सोशल मीडिया पोस्ट के मार्फत कर्नाटक के विभिन्न समुदायों में वैमनस्य फैलाने की चेष्टा की गयी है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 मई। एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, पार्टी के मीडिया प्रभारी अमित मालवीय और कर्नाटक के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी.वाय. विवेन्द्र के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। आरोप है कि इस सोशल मीडिया पोस्ट में एस.सी. और एस.टी. समुदायों के वोटर्स को कथित रूप से भयभीत किया गया है।

कांग्रेस को एक धर्म विशेष का पक्ष लेने वाली पार्टी के रूप में चित्रित करने वाले एक एनीमेटेड वीडियो के जारी होने के बाद कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस ने इसकी शिकायत दर्ज करायी थी। सोशल मीडिया साइट "एक्स" भाजपा की कर्नाटक इकाई के ऑफिशियल हैंडल पर पोस्ट किए गए वीडियो में राहुल

■ सोशल पोस्ट में दिखाया गया है कि, कांग्रेस एक डब्बे में चार अण्डे रख रही है, जिन पर मुसलमान, एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. लिखा है।

■ जब इन अण्डों से चूजे निकलते हैं, तब राहुल गांधी केवल उस चूजे को आहार दे रहे हैं जिस पर मुस्लिम लिखा है तथा मुस्लिम चूजा अन्य चूजों को धक्के मार कर बाहर निकाल देता है।

गाँधी और मुख्यमंत्री सिद्धार्थैया के कैरिकेचर के साथ एक घोसला दिखाया गया है जिसमें चार अण्डे रखे हैं। एक अण्डे पर "मुसलमान" लिखा है, जबकि अन्य पर एस.सी. एस.टी. और ओ.बी.सी. वीडियो में राहुल गांधी के अगले कैरिकेचर में उन्हें उसी चूजे को "फण्ड्स" रूपी भोजन देते बताया गया है जो "मुस्लिम" अण्डे से निकला है। वीडियो का कैप्शन है "सावधान, सावधान, सावधान।" वीडियो में दिखाया गया है कि मुस्लिम अण्डे से निकला चूजा अन्य तीन अण्डों से निकले चूजों को धक्का देकर अलग करता है। उसके बाद हंसी की आवाज आती है। कांग्रेस की शिकायत में कहा है कि वीडियो में पिछड़े समुदायों को अंडे के रूप में प्रदर्शित कर उनका अपमान किया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेठी और रायबरेली का प्रभार दो पूर्व मु.मंत्रियों को

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 मई। सोमवार को कांग्रेस ने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को वी.आई.पी. निर्वाचन क्षेत्र, रायबरेली व अमेठी के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ए.आई.सी.सी. महासचिव के.सी.

■ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अमेठी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल रायबरेली की चुनाव व्यवस्था संभालेंगे। वेणुगोपाल द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जिम्मेवारी दी गई है तथा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल गाँधी की लोकसभा सीट रायबरेली का काम देखेंगे।

पूर्व मु.मंत्रियों को रायबरेली व अमेठी में पर्यवेक्षक बनाया गया है?

कांग्रेस को उम्मीद है कि, भूपेश बघेल व गहलोत अपनी अंटीयां खोलेंगे इन दोनों प्रतिष्ठित सीटों के चुनाव को फाइनैस करने के लिए

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 मई। अशोक गहलोत को अमेठी लोकसभा सीट तथा भूपेश बघेल को रायबरेली लोकसभा सीट के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। दोनों पूर्व मुख्य मंत्रियों से अपेक्षित है कि, वो आर्थिक संकट से जुड़े रही कांग्रेस पार्टी को इन दोनों सीटों के लिए फाइनैस मुहैया कराने में अपनी अंटीयां खोलेंगे। फण्ड मुहैया करावेंगे। कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली, दोनों ही प्रतिष्ठित सीटें हैं, जहाँ गाँधी परिवार को स्थापित करना है कि, अभी भी ये दोनों सीटें उनके प्रभाव की सीटें हैं। रोचक बात यह है कि, बाकी 15 सीटों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त क्यों नहीं किए गए हैं, जिन पर उत्तर प्रदेश में पार्टी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में कुल मिलकर 17 सीटों से चुनाव लड़ रही है। सुओं का कहना है कि, अशोक गहलोत राहुल गाँधी के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रियंका

■ अशोक गहलोत द्वारा अपने पुत्र वैभव के चुनाव के लिये सौ करोड़ रुपये का बजट रखने की चर्चाओं ने, गहलोत को दिलवाया अमेठी के पर्यवेक्षक का चार्ज।

■ गहलोत, राहुल गांधी के चुनाव पर्चा भरने के कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं थे, पर, प्रियंका गांधी के हैलिकॉप्टर पर किसी तरह चढ़ कर रायबरेली पहुँच ही गये। यह "तथ्य" उनकी प्रचार टीम के लिये पर्याप्त था, यह बात फैलाने के लिये कि, वे अभी भी गांधी परिवार के विश्वासपात्र व नजदीकी हैं तथा अन्य जगहों पर उनकी क्या स्थिति है, उसका फर्क नहीं पड़ता।

■ पर विचारणीय बात यह है कि, माना कि, कांग्रेस पार्टी में पैसों की भारी कमी है, पर, वी.आई.पी. सीटों के लिये पैसे का जुगाड़ क्यों किया गया है, बाकी साधारण सीटों को उम्मीदवारों के भाग्य पर क्यों छोड़ दिया गया है।

■ उदाहरण के लिये, उड़ीसा में कांग्रेस उम्मीदवार सुचरिता मोहंती का प्रकरण है। श्रीमती मोहंती ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली क्योंकि ए.आई.सी.सी. के प्रतिनिधि अजय कुमार ने उनसे साफ कह दिया कि, ए.आई.सी.सी. उनकी कुछ भी आर्थिक मदद नहीं कर सकती चुनाव में। श्रीमती मोहंती व उनके पति पत्रकार हैं, अतः चुनाव में अपने स्रोतों से खर्चा वहन करना उनकी बस की बात नहीं है, अतः उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की घोषणा की।

गाँधी के हैलिकॉप्टर में उनके साथ रायबरेली पहुँचे। कहा जा रहा है कि, इस अवसर पर उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था, वो जबरदस्ती वहाँ पहुँचे। अब अशोक गहलोत के मित्रों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि, गहलोत

अभी भी गाँधी परिवार के नजदीकी और विश्वास पात्र आदमी हैं और पार्टी में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सड़क हादसे में सेना के जवान सहित पांच जनों की मौत

सिंधाना के पास बाइक को टक्कर मारकर बस में घुस गई थी स्कार्पियो गाड़ी



हादसे में स्कार्पियो गाड़ी चकनाचूर हो गई।



सिंधाना थाना क्षेत्र के थली के पास हुये सड़क हादसे में मृतक।

खेतड़ी, (निर्स)। सिंधाना थाना क्षेत्र के थली के पास सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में सेना के जवान सहित पांच जनों की मौत हो गई। हादसे में बस में सवार 22 लोग घायल हो गए, जहाँ आठ जनों की हालत गंभीर होने पर ड्यूबुरुं रैफर किया गया है। इस दौरान चौख पुखार मचने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा बस में सवार घायलों को निजी वाहनों से सिंधाना के राजकीय अस्पताल में पहुंचाया। इसके बाद सूचना पर सिंधाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा जेसीबी व क्रेन की सहायता से घायलों को निकाला व आसपास की एंबुलेस बुलाकर उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया।

मृतक करणवीर भारतीय सेना की सिमनल कौर मे लांस हवलदार के पद पर मे तैनात था। वह रविवार रात को ही एक माह की छुट्टी लेकर घर आया था। एक महीने पहले ही दस दिन की छुट्टी आने पर स्कार्पियो गाड़ी

निकलवाई थी। सुबह अपने भाई के बेटे का स्कूल में एडमिशन करवाने के बाद उन्हें घर छोड़कर सिंधाना के लिए अपने दोस्त रिकु व भांजे साहिल के साथ गाड़ी में सवार होकर जा रहा था। गांव से कुछ दूर पहुंचने की बाद ही हादसे का शिकार हो गया। क्षेत्र में बड़ा हादसा होने पर सीएमएचओ डॉ. राजकुमार डांगी ने घायलों के उपचार के लिए बुहाना, उपजिला अस्पताल खेतड़ी से अतिरिक्त स्टाफ मौके पर भेजा। सूचना पर सिंधाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा जेसीबी व क्रेन की सहायता से घायलों को निकाला व आसपास की एंबुलेस बुलाकर उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया।

■ बस में सवार 22 जने घायल, आठ लोग गंभीर हालत में जिला अस्पताल में रैफर

■ हादसे का शिकार सेना का जवान रविवार रात को ही एक महीने की छुट्टी लेकर आया था

निवासी करणवीर (29) पुत्र शीशराम गुर्जर, रोहित उर्फ रिकु (22) पुत्र बलवीर गुर्जर, नारेडी निजामपुर निवासी साहिल उर्फ राहुल (20) पुत्र शीशराम क्षेत्र में लगी हुई थी। साथ में कांस्टेबल हिमंतसिंह था। हम लोग चेतक वाहन में गश्त कर रहे थे। तब ड्यूटी ऑफिसर जस्सामरा की सूचना आई कि पालासनी गांव में एक डंपर का पीछा किया गया है जोकि रेत में धंस गया है। जिसे पकड़ा गया है। इस पर वे डंपर को जन्ती की कार्रवाई के लिए जालेली नायला से

नथूराम यादव की मौत हो गई। हादसे में रोशनी पत्नी लीलाराम निवासी माकड़ो, हिमांशु निवासी माकड़ो, राजबाला पत्नी सुबे सिंह निवासी सागा, कैलाश पुत्र प्रहलाद निवासी थली, पवन निवासी थली, ढाणी हुस्मा निवासी मनीषा, सोनु कुमारी, सोनु जांगि, अनिता, सुमन, सिंधाना निवासी भोमसिंह, संतलाल, चिरानी निवासी बलवंत, सुलताना अहिरान निवासी राजकी, कार्तिक, मेहाड़ा निवासी मोहित, बन्वास निवासी सीमा घायल हो गए। इनमें सागा निवासी राजबाला, माकड़ो निवासी हिमांशु, पताशी देवी, अमरपुरा निवासी रूकेश, राजपाल, शकुंतला, अनिता, सुखराम की हालत गंभीर होने पर रैफर कर दिया।

बाइक सवार सेफरागुवार से जा रहा था सुरजगढ़ - हादसे का शिकार हुआ बाइक सवार अपने गांव सेफरागुवार से सुरजगढ़ जा रहा था। मृतक के भाई मुकेश यादव ने बताया कि उसका भाई

सुरेश यादव सुबह बाइक पर सवार होकर सुरजगढ़ गया था। इस दौरान जब वह थली के पास पहुंचा तो सामने से आ रही स्कार्पियो गाड़ी ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा सूचना करने पर वह मौके पर पहुंचे। मृतक सुरेश के एक बेटा पीयूष (13) तथा छोटा बेटा लक्की (10) का है। सुरेश यादव टीचर बनने की तैयारी कर रहा था।

हादसे का शिकार हुआ सेना का जवान रविवार रात को ही एक महीने की छुट्टी लेकर घर आया था। जवान करणवीर वर्ष 2015 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। इनके पिता शीशराम भी सेना से सेवानिवृत्त है। करणवीर दो भाईयों में छोटा था बड़ा भाई विकास पर ही रहता है। करणवीर का विवाह 2016 में कोटपुतली के बिंजाहेडा निवासी मीरा के साथ हुआ था। इनके एक चार साल की बेटा पबीना है।

जन शिक्षण संस्थान की निदेशक बीस हजार की रिश्त लेते गिरफ्तार

कर्मचारी से बढ़ी हुई सैलरी देने की एवज में 40 हजार की घूस मांगी थी

अजमेर, (कासं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए जन शिक्षण संस्थान की निदेशक को 20 हजार की रिश्त लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। निदेशक के द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर को इसकी शिकायत दी गई जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीपी के द्वारा संस्थान की निदेशक के आवास और कार्यालय पर भी सर्च किया जा रहा है।

जन शिक्षण संस्थान के पीड़ित कर्मचारी राजीव कालोनी अजमेर निवासी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि 1993 से वह जन शिक्षण संस्थान में कार्यरत है। 2021 में उसे प्रोग्राम ऑफिसर के पद का एडिशनल चार्ज दिया गया था। एडिशनल चार्ज मिलने के बाद उसकी सैलरी 14,000 से 26,000 को गई थी। वेतन बढ़ोतरी के बाद संस्थान की निदेशक श्वेता आनंद के द्वारा सैलरी बढ़ाकर देने की एवज में



भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर ने रिश्त के आरोप में जन शिक्षण संस्थान की निदेशक श्वेता आनंद को गिरफ्तार किया।

4 हजार रुपए हर महीने देने साल के करीब साल के 40 हजार रुपए की रिश्त मांग कर परेशान किया जा रहा था। उस समय उसने निदेशक को रिश्त देने से मना कर दिया था। लेकिन उसे लगातार परेशान किया गया और उसकी बढ़ी हुई सैलरी भी नहीं दी गई। पीड़ित ने बताया कि इसके बाद उसने कुछ दिनों पहले परेशान होकर एसीबी से इसकी शिकायत की थी।

एसीबी अजमेर की मीणा बेनीवाल

ने बताया कि शैलेंद्र कुमार की शिकायत पर सत्यापन किया गया। इसके बाद सोमवार को एसीबी टीम ने जन शिक्षण संस्थान के निदेशक श्वेता आनंद को 20 हजार की रिश्त लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, यह पूरी कार्रवाई एडिशनल एसपी भागचंद मीणा के नेतृत्व में की गई है। एसीबी के द्वारा इस मामले में अन्य कर्मचारियों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए भी निदेशक से पूछताछ की जा रही है।

झांसा देकर 6.40 लाख की ठगी

परबतसर, (निर्स)। यूएसडीटी ऑनलाइन व्यापार का झांसा देकर एक युवक से छह लाख चालीस हजार की धोखाधड़ी का मामला पुलिस थाना में दर्ज हुआ है।

पुलिस के अनुसार हरिराम पुत्र डोलाराम जाट ने रिपोर्ट दर्ज करवाई की राहुल पादड़ पुत्र बाबुराम जाट निवासी पादड़ों की ढाणी मोरेंड ने प्रार्थी को यूएसडीटी ऑनलाइन व्यापार करने का झांसा दिया। ऑनलाइन रुपए लगाकर एक दिन में 10-20 हजार रुपए कमाने की बात कही। इसके बाद राहुल ने प्रार्थी को परबतसर बुलाया। बाद में राहुल पादड़ वहां आया प्रार्थी से 6.40 लाख रुपए लेकर आईडी लॉगिन करने की बात कही। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मंगेतर ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया

अजमेर, (कासं)। अलवर गेट थाने क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने अपने मंगेतर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना प्रभारी व जांच अधिकारी श्याम सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़ित युवती ने थाने में अपने मंगेतर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। दर्ज रिपोर्ट में युवती ने 2023 में उसकी शादी एक युवक से तय हुई थी। आरोपी के परिवार वालों ने बेटे के द्वारा कोई नशा नहीं करने की बात कही थी, इसके बाद से हम दोनों का मिलना-जुलना होने लगा। पीड़िता ने आरोप लगाया कि एक दिन आरोपी उसके घर आया और फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए जोर जबरदस्ती करने लग गया, तो उसने मना किया था। युवती ने बताया कि आरोपी ने उसे शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी से बांसवाड़ा में रोका हो गया था। दोनों परिवारों के बीच बातचीत के बाद शादी भी तय हो गई थी। इसके बाद से ही मंगेतर उसके साथ झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया कि आरोपी ने 2024 में मंगेतर नशे की हालत में घर आया और उसे शादी करने से मना कर दिया और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ट्रक से टकराई कार, दो की मौत, तीन युवक घायल

टोंक, (निर्स)। सदर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात को जयपुर से आ रही कार डिवाइडर क्रॉस करके रौंग साइड में सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। इसके बाद कार और ट्रक भी सड़क के नीचे पलट गए।

इस हादसे में कार सवार कोटा

■ जयपुर से कोटा की ओर जा रही थी कार, मृतक और घायल कोटा जिले के बताये हैं

■ घायल भी ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, उनके पास मिले आधार कार्ड समेत अन्य कागजात से उनकी पहचान की गई

■ हादसे के बाद बलैनों कार क्षतिग्रस्त हो गई



टोंक के सदर थाना क्षेत्र में हुये सड़क हादसे में मृतकों के फाइल फोटो।

सोमवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। सदर थाना प्रभारी बृज मोहन कविष्या ने बताया कि रात करीब 9.30 बजे एक बोलैनों कार जयपुर से कोटा की ओर जा रही थी। इस दौरान सदर थाना क्षेत्र में जयपुर कोटा नेशनल हाइवे 52 पर धर्म कांटे के पास बोलैनों कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर कूद कर दूसरी साइड में आ गई और सामने से जयपुर की ओर से आ रहे ट्रक से टकरा गई। उसके बाद चीख पुकार मच गई। इस हादसे में कार सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन कार सवार घायल हो गए। मृतक और घायल कोटा जिले के हैं। थाना प्रभारी ने स्टॉफ के साथ कार में बुरी तरह फंसे घायलों और मृतकों को बाहर निकाला, फिर सभी को सहायता अस्पताल भेजा। जहां दो युवकों को औपचारिक रूप से मृत घोषित कर

दिया, जबकि तीन घायलों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। पुलिस के अनुसार घायल भी ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। ऐसे में उनके पास मिले आधार कार्ड समेत अन्य कागजात से उनकी पहचान की गई। बाद में पुलिस ने उनके परिजनों से संपर्क कर उन्हें घटनाक्रम की जानकारी देकर बुलाया, परिजन रविवार मध्य रात बाद टोंक आ गए। तीन घायलों को कोटा रैफर कर दिया। मृतकों में कोटा (ग्रामीण) जिले के प्रदुमन (20) पुत्र ब्रजबिहारी मीणा निवासी सीमलिया कल्याणपुरा तथा आयुष (20) पुत्र ग्यारसीलाल मीणा निवासी दौगोद थाना क्षेत्र मूंडला निवासी की मौके पर ही मौत हो गई तथा घायलों में राजकुमार पुत्र काशीलाल मेघवाल, रुद्रेश पुत्र धनराज मीणा, सुरेंद्र उर्फ कालू पुत्र अमर लाल मीणा जो घायल हो गये।

डंपर चालक का पुलिस पर हमला, चेतक को मारी टक्कर

जोधपुर, (कासं)। निकटवर्ती डांगियावास के कोकुण्डा गांव की सरहद में शनिवार-रविवार की मध्य रात पुलिस की चेतक जीप को डंपर चालक ने जान से मारने की मारने की नीयत से गाड़ी को टक्कर मार दी। इसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ हत्या प्रयास एवं राजकार्य में बाधा का केस दर्ज किया गया है। पुलिस डंपर के नंबर के आधार पर चालक का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

डांगियावास पुलिस थाने के हैड कांस्टेबल लक्ष्मणराम ने मामला दर्ज करवाया है। इसमें उसने बताया कि शनिवार की रात को उसकी ड्यूटी थाना क्षेत्र में लगी हुई थी। साथ में कांस्टेबल हिमंतसिंह था। हम लोग चेतक वाहन में गश्त कर रहे थे। तब ड्यूटी ऑफिसर जस्सामरा की सूचना आई कि पालासनी गांव में एक डंपर का पीछा किया गया है जोकि रेत में धंस गया है। जिसे पकड़ा गया है। इस पर वे डंपर को जन्ती की कार्रवाई के लिए जालेली नायला से

■ पुलिस ने हत्या का प्रयास और राजकार्य में बाधा का केस दर्ज किया

रवना हुए। मगर देर रात तवा एक बजे चेतक लेकर कोकुण्डा गांव की सरहद में पहुंचे तब सामने से एक डंपर आता दिखाई दिया। जिस पर उसे रूकने का इशारा किया गया तो उसके चालक ने डंपर को भगाते हुए पुलिस की चेतक को जोरदार टक्कर मार कर क्षतिग्रस्त कर दिया और जान से मारने की नीयत से टक्कर मारी।

पुलिस ने बताया कि हैडकांस्टेबल लक्ष्मणराम ने डंपर के नंबर नोट किए हैं जिस आधार पर अब चालक का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल उसका पता नहीं चला है। इस बारे में हत्या प्रयास एवं राजकार्य में बाधा डालने का केस दर्ज किया गया है।

चार युवकों ने नाबालिग से बलात्कार किया

घटना एक सप्ताह पुरानी बताई जा रही है, मुख्य आरोपी मजदूरी का काम करता है

कोलायत, (निर्स)। एक नाबालिग लड़की के साथ सप्ताहिक बलात्कार का मामला थाने में दर्ज किया गया। घटना एक सप्ताह पुरानी है। मुख्य आरोपी मजदूरी का काम करता है। वह पीड़िता को बाजार से मोटरसाइकिल पर सामान रखकर लाने के बहाने से ले गया। रास्ते में दोस्तों को बुलाकर बलात्कार किया। पुलिस के अनुसार घटना 26 अप्रैल की दोपहर 12 से 3 बजे के बीच की है। पीड़ित नाबालिग और परिजनों ने कोलायत थाने पहुंचकर इसकी जानकारी दी तो तुरंत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें रवाना कर दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण

गुप्तशुभ रहने लगी और खाना भी नहीं खाया। मां ने साहस बंधाकर पूछा तो वह फूट पड़ी और रोते रोते पूरा घटना बताई। पुलिस ने अनिल व चार अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी अनिल उसे बाजार ले जाने की जगह सुनसान मार्ग पर ले गया। वहां जाकर अपने तीन दोस्तों को फोन कर बुला लिया। इसके बाद चारों ने बारी-बारी से नाबालिग के साथ बलात्कार किया। इसके बाद नाबालिग को आरोपियों ने किसी को घटना के बारे में नहीं बताने की धमकी दी। नाबालिग को डराया कि किसी को बताया तो परिवार की बदनामी होगी।

पीड़िता ने बताया कि आरोपी अनिल उसे बाजार ले जाने की जगह सुनसान मार्ग पर ले गया। वहां जाकर अपने तीन दोस्तों को फोन कर बुला लिया। इसके बाद चारों ने बारी-बारी से नाबालिग के साथ बलात्कार किया। इसके बाद नाबालिग को आरोपियों ने किसी को घटना के बारे में नहीं बताने की धमकी दी। नाबालिग को डराया कि किसी को बताया तो परिवार की बदनामी होगी।

नीट परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार

मुख्य अभ्यर्थी सुरज गुर्जर के स्थान पर परीक्षा देते हुये पाये जाने पर कार्रवाई की

भरतपुर, (निर्स)। भरतपुर में मथुरा गेट थाना पुलिस ने नीट परीक्षा में डमी कैंडिडेट के पहुंचने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं फिलहाल दो को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस मामले को लेकर एसपी मृदुल कच्छवा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पांच मई को नीट परीक्षा के दौरान मुख्य अभ्यर्थी सुरज गुर्जर के स्थान पर परीक्षा देते हुये पाये जाने पर आरोपी अभियेक गुप्ता निवासी सपोटरा एवं इसके सहयोगी सुरज गुर्जर निवासी भण्डाना, राहुल गुर्जर पुत्र अमरसिंह निवासी भण्डाना व डॉ. रविकान्त पुत्र रामखिलाड़ी निवासी छारेड़ा को गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि रविवार को मास्टर आदित्येंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के दिनेश सिंह प्राचार्य ने इस आशय की शिकायत पेश की कि एनटीडी द्वारा आयोजित नीट परीक्षा में परीक्षा के दौरान एनटीडी से परीक्षार्थी सुरज कुमार गुर्जर के



भरतपुर में पुलिस ने नीट परीक्षा में डमी कैंडिडेट के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया।

सम्बन्ध बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने वाली एजेंसी की कर्मचारी काजल का दूरभाष पर संदेश आया कि इस छात्र के स्थान पर कोई डमी कैंडिडेट परीक्षा में उपस्थित हुआ है। जिसके बाद परीक्षार्थी को जांच के लिए नियंत्रक कक्ष में लाया गया तथा एजेंसी के द्वारा वीडियो काल पर आधार बायोमेट्रिक सत्यापन कराने की

प्रक्रिया पूर्ण करायी गयी, जिसमें अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक मिसमैच मिला। जिससे आपन पता पूछा तो डमी कैंडिडेट ने अपना नाम अभियेक गुप्ता निवासी सपोटरा मोड़ सपोटरा थाना सपोटरा जिला करौली बताया। जिसने नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में तृतीय वर्ष एमबीबीएस का छात्र है। यह अपने बैचमैट डॉ. रविकान्त के कहने

मामला दर्ज कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान फर्जी परीक्षार्थी अभियेक को गिरफ्तार किया गया। जिससे गहनतपूर्वक पूछताछ की जा रही है। वहीं पूछताछ में पता चला कि अभियेक गुप्ता वर्तमान में जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में तृतीय वर्ष एमबीबीएस का छात्र है। यह अपने बैचमैट डॉ. रविकान्त के कहने

पर पैसे लेकर सुरज गुर्जर निवासी भण्डाना जिला दौसा के स्थान पर नीट परीक्षा में मास्टर आदित्येंद्र स्कूल में डमी कैंडिडेट बनकर बैठा। इसी प्रकार मुख्य परीक्षार्थी सुरज अपने भाई राहुल के कहने पर नीट में फार्म भरा एवं उस परीक्षा में अपने स्थान पर डॉक्टर अभियेक को डमी कैंडिडेट बनाकर बिठाया। परीक्षा के वक्त सुरज अपने साथियों के साथ परीक्षा केन्द्र के बाहर गाड़ी में बैठा था। इसी प्रकार राहुल गुर्जर ने अपने भाई सुरज को नीट परीक्षा में पास करवाने के एवज में डॉक्टर रविकान्त से कुल 10 लाख रुपये देने की बात की एवं एडवॉकांस में 1 लाख रुपये टुकड़ों में पहले ही दे दिये। इसी प्रकार डॉ. अमित जाट पुत्र रामनिवास निवासी जिन्नावालों की ढाणी आरयूएचएस कॉलेज जयपुर में एमबीबीएस तृतीय वर्ष का छात्र है तथा डॉक्टर रविकान्त का मित्र है एवं परीक्षा के दौरान पुलिस ने परीक्षा केन्द्र के बाहर से डिटैल किया है। पूछताछ एवं अनुसंधान जारी है।

अनियंत्रित होकर पिकअप पलटी, बालिका की मौत, 11 जने घायल

परबतसर, (निर्स)। अनियंत्रित होकर पिकअप के पलटी खाने से एक बालिका की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। पुलिस थाना परबतसर के ग्राम बिदियाद के समीप एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर अल सुबह पलट गई। इस दौरान पिकअप में सवार 11 जने घायल हो गए। जिन्हें परबतसर चिकित्सालय लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद तीन को अजमेर रैफर कर दिया गया। जहां उपचार के दौरान एक बालिका की मौत हो गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बिदियाद के समीप एक बेकावू पिकअप

■ प्राथमिक उपचार के बाद तीन घायलों को अजमेर रैफर किया गया

■ पिकअप में सवार सभी लोग हबचर, डेगाना से किन्सरिया आ रहे थे

पपुड़ी पत्नी श्रवन राम, सुनीता पत्नी मंगाराम, नानुराम पुत्र सुखाराम, अनुष्का पुत्री मूलचंद, सुलतान पुत्र श्रवनराम, पुपुड़ी पत्नी सुलतानराम, चौकू पुत्री कैलाश, विकास पुत्र सोहनलाल सभी निवासीगण हबचर (डेगाना) घायल हो गए। इनमें से गंभीर घायल हुए योगिता, अनुष्का और रतना को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के लिए रैफर कर दिया गया, जहां पर इलाज के दौरान 13 वर्षीय बालिका रतना की मौत हो गई। जानकारी मिली है कि दुर्घटनाग्रस्त पिकअप में सवार सभी लोग हबचर, डेगाना से किन्सरिया आ रहे थे।

पलट गई। हादसों में रतना पुत्री प्रभुराम, योगिता पुत्री मंगाराम, राजू पुत्र प्रभुराम,

स्काउट-गाइड सह शैक्षिक गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन हो : राज्यपाल

जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि राज्य के सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में स्काउट गाइड सह शैक्षिक गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी स्तरों पर वातावरण निर्माण कर कार्य किया जाए। राज्यपाल ने स्काउट गाइड में उत्कृष्ट कार्यों के लिए संगठन के सहायक राज्य संगठन आयुक्त विनोद दत्त जोशी को इस अवसर पर चल वैजयंती शीलड भी प्रदान की।



राज्यपाल मिश्र ने राजभवन में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की विशेष बैठक में संबोधित किया।

राज्यपाल ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि राजस्थान शिक्षा के साथ सह शैक्षिक गतिविधियों में देश भर में अग्रणी है। उन्होंने शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों में सुजातात्मक क्षमताओं के विकास के लिए निरंतर कार्य किए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में भी विद्यार्थियों की क्षमता विकास पर ही अधिक जोर दिया गया है।

राज्यपाल ने पूरे देश में एक मात्र राजस्थान में स्काउट गाइड के आवासीय

विद्यालयों का गठन कर उनका संचालन को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने जगतपुरा, जयपुर और खुड़ी, लक्ष्मणगढ़, सीकर में इस तरह के आवासीय विद्यालयों और वहां की गतिविधियों से विद्यार्थियों में सुजातात्मक क्षमताओं विकास के लिए निरंतर कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने राज्य के सभी वित्तपोषित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड सह शैक्षिक गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन के साथ इनमें देश भर में

राज्य को अग्रणी किए जाने का आनंद व्यक्त किया। बैठक में बताया गया कि इस समय 60 प्रतिशत से अधिक विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में स्काउट गाइड गतिविधियां संचालित हो रही हैं। राज्यपाल ने गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय को तर्ज पर महाविद्यालयों और विद्यालयों के लिए सात दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए भी कार्यवाही किए जाने पर सहमति जताई। उन्होंने इस संगठन में कोटा मनी और फंड के लिए राशि एकत्रण आदि के लिए

भी प्रस्तावों के संदर्भ में कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता जताई। राज्यपाल ने स्काउट गाइड संगठन के जरिए युवाओं को अधिकाधिक लाभान्वित किए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रीन कोर योजना के तहत स्काउट गाइड संगठन द्वारा ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण आदि के किए जा रहे कार्यों की सराहना की तथा इन गतिविधियों को और बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने संगठन के आम जन की सेवार्थ किए जा रहे कार्यों को भी अनुकरणीय बताया।

बैठक में स्काउट गाइड के राजस्थान के मुख्ययुक्त श्री निरंजन आर्य ने बताया कि आगामी 3 वर्षों में राज्य में 20 लाख स्काउट गाइड वृद्धि करने की योजना है। राज्य के 6 हजार 594 विद्यालय और महाविद्यालयों के स्वतंत्र समूह पंजीकृत किए गए। इससे पहले स्काउट गाइड के राज्य आयुक्त डा. अखिल शुक्ला और अन्य पदाधिकारियों ने राज्यपाल का अभिनंदन किया। राज्य सचिव श्री पीसी जैन ने सभी का आभार जताया। राज्यपाल के सचिव गौरव गोयल सहित बड़ी संख्या में बैठक में अधिकारियों ने भाग लिया।

ई-उपकरण सॉफ्टवेयर के माइयूल्स का ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू

जयपुर। प्रदेश के उपस्वास्थ्य केन्द्रों एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ई-उपकरण सॉफ्टवेयर के विभिन्न माइयूल्स का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 मई से 20 मई तक ऑनलाइन संचालित किया जा रहा है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की प्रबन्ध निदेशक नेहा गिरि ने बताया कि निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सोमवार को अजमेर संभाग के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी व एएनएम ई-उपकरण सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण दिया गया।

इस प्रशिक्षण में अजमेर संभाग के लगभग 250 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में ई-उपकरण सॉफ्टवेयर, रिचरच-मेट्रोनेस एवं क्रय आदेश आदि के बारे में आर्टी टीएम द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। नेहा गिरि ने बताया कि ई-उपकरण से जुड़े सम्बन्धित अधिकारी का कर्मिकों को आरएमएससीएल द्वारा भिजवाये जाने वाले उपकरणों को प्राप्त संस्थान द्वारा तत्काल समय पर ही देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उपकरणों का इंस्टॉलेशन स्वास्थ्यकर्मों अपनी उपस्थिति में ही करवाए। उन्होंने कहा कि सभी संस्थानों का कर्तव्य है कि अपनी कागजी कार्यवाही कम किए जाने के लिए ई-उपकरण पर ऑनलाइन प्रविष्टि किया जाना आवश्यक है।

आई.पी.एस. सुष्मिता बिश्वास की बेटी ने फहराया यू.एस.ए. में परचम



आशिरा को अमरीका में प्रतिष्ठित द जी. कीथ फंस्टन पुरस्कार इन इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया।

जयपुर। राजस्थान मानव अधिकार आयोग में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुष्मिता बिश्वास की बेटी आशिरा को अमरीका में प्रतिष्ठित द जी. कीथ फंस्टन पुरस्कार इन इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया है।

■ अमरीका में प्रतिष्ठित द जी. कीथ फंस्टन पुरस्कार इन इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया

आशिरा यूएसए के ट्रिनिटी कॉलेज में क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में बैचलर ऑफ साइंस के अंतिम वर्ष की छात्रा है। आशिरा को ट्रिनिटी कॉलेज यूएसए का एकेडमिक टॉपर घोषित किया गया है। यह भारतीय विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक के बराबर है। अर्थशास्त्र में उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धि और कॉलेज की सेवा के लिए मिला पुरस्कार।

■ अर्थशास्त्र में उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धि और कॉलेज की सेवा के लिए मिला पुरस्कार। अपना करियर बनाने की योजना है। इससे पहले भी आशिरा ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान एक विश्व स्तर की प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया था। जिसके लिए नोबेल समिति ने साल 2022 में आशिरा को नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इनकी आगे ग्लोबल फाइनेंस सेक्टर में सम्मानित किया गया था।

रघु सिन्हा आधारित पुस्तक का विमोचन मेक इन इंडिया सोलर पैनल्स पर जोर

जयपुर। रघु सिन्हा, जिन्हें अनक्राउंड महाराजा ऑफ जयपुर के रूप में जाना जाता है, वह ऐसे व्यक्ति भी थे, जिन्होंने जरूरत के समय हमेशा लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। फिर चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा सहायता, मार्गदर्शन या फिर एक भरोसेमंद रिश्ता निभाने की। वे लोगों की मदद के लिए तत्पर रहे। रघु सिन्हा को सौ वर्ष पूर्ण होने पर श्रद्धांजलि के रूप में जिनका जन्म 5 मई, 1924 को हुआ था, रघु सिन्हा: लाइफ एंड लिगेसी, पुस्तक का जयपुर के अशोक क्लब में विमोचन हुआ। पुस्तक का विमोचन महाराज जय सिंह, मीरा खन्ना, मालाश्री लाल, सुरेंद्र गोलछा और सुधीर माथुर ने किया। सुधीर माथुर द्वारा संकलित, यह पुस्तक रघु सिन्हा की महानता के साथ-साथ उनकी विरासत को भी एक सच्ची श्रद्धांजलि है। इस समकालीन परिदृश्य में जिन्हें रोल मॉडल की तलाश है, उनके लिए यह पुस्तक एक रोशनी के रूप में काम करेगी।



रघु सिन्हा: लाइफ एंड लिगेसी, पुस्तक का जयपुर के अशोक क्लब में विमोचन हुआ।

अपनेपन ने प्रभावित किया था। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि समाज के लिए उनकी सेवा, कला और संस्कृति में उनका योगदान, दूसरों को प्रेरित करने और अभिभावक के रूप में उनकी भूमिका आदि सभी को पुस्तक में शामिल किया गया है। इस अवसर पर, महाराज जय सिंह, जो

सिन्हा के साथ अपना जन्मदिन भी साझा करते हैं, ने उनके साथ जन्मदिन मनाने की अपनी यादें ताजा कीं। उन्होंने आगे कहा कि सिन्हा जयपुर शहर को विरासत को संरक्षित करने में सक्रिय भूमिका निभाई। सभी अवसरों पर एक सज्जन व्यक्तित्व के

रूप में और पोलो के खेल में उनका योगदान भी उल्लेखनीय है। सुधीर माथुर ने कहा कि यह उनके लिए एक भावनात्मक क्षण है क्योंकि यह ड्रूम प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। रघु मामा, जैसा कि वे उन्हें प्यार से बुलाते थे, उनके आदर्श हैं और बड़े होने के दौरान उन्होंने उनके आचरण को देखा और उनकी कई विशेषताओं को स्वयं में आत्मसात किया। सुरेंद्र गोलछा ने शहर में टेनिस के खेल में रघु सिन्हा के योगदान को याद किया और बताया कि कैसे अब भी उनके संरक्षण में बने कोर्ट का उपयोग शहर के युवाओं द्वारा किया जा रहा है। मीरा खन्ना ने कहा कि सुधीर माथुर समाज-सेवा और शहर के विभिन्न संगठनों को सहयोग करने के मामले में रघु सिन्हा का सच्चा प्रतिबिंब है।

चर्चा का संचालन करते हुए मालाश्री लाल ने कहा कि रघु सिन्हा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि अपने आप में एक इन्स्टिट्यूशन थे। पुस्तक विमोचन के अवसर पर परिवार के सदस्य, पुस्तक में योगदान देने वाले, मित्र और ट्रस्ट के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

जयपुर, (का.सं.)। बलीन व ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में प्रतिष्ठित भारत की प्रतिष्ठित सोलर पैनल मैयूफैक्ट्रिंग कंपनी इन्सोलेशन एनर्जी लिमिटेड (आईएनए सोलर) ने 4 मई को जयपुर के क्लब में ऊर्जा 3.0 चैनल पार्टनर्स मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कंपनी के चेयरमैन मनीष गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर विकास जैन, नॉन एजीक्यूटिव डीपेंडेंट डायरेक्टर अनिल कुमार गुप्ता, एवं इन्सोलेशन एनर्जी के 400 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स एवं डीलर्स शामिल हुए।

चेयरमैन मनीष गुप्ता ने इन्सोलेशन परिवार की तरफकी में भागीदारी के लिये सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और कंपनी के आगामी वर्षों के टारगेट्स एवं बिजनेस मॉडल के बारे में चर्चा की। साथ ही मेक इन इंडिया सोलर पैनल पर भी जोर दिया ताकि भारत को इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाया जा सके एवं भारत के हर घर को सोलर ऊर्जा से जोड़कर एक नयी सोलर क्रांति देश में लायी जाये। इस मीट में सोलर ने अपने टॉप 15 डीलर्स को सम्मानित भी किया साथ ही

इन्सोलेशन एनर्जी लिमिटेड ने की ऊर्जा 3.0 चैनल पार्टनर्स मीट

अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स एवं डीलर्स के लिए आकर्षक स्क्रीम्स को भी लांच किया गया तथा लकी ड्रा के द्वारा विजेताओं को गिफ्ट्स भी दिए गए। एमडी विकास जैन ने बताया कि कंपनी की जयपुर में वर्ल्ड क्लास आधुनिक सुविधाओंयुक्त दोनो इकाइयों की संयुक्त उत्पादन क्षमता सालाना 950 मेगावाट है। आगामी वर्षों में निर्माण क्षमता को 3000 मेगावाट तक बढ़ाने, 1200 मेगावाट सोलर सेल मैयूफैक्ट्रिंग की यूनिट लगाने की योजना है। आईएनए सोलर विभिन्न आकारों में उच्च दक्षता के सोलर पैनल, बैटरी और इन्वर्टर के निर्माण का व्यवसाय करती है। कंपनी शीघ्र टॉप कोट सोलर पैनल का निर्माण शुरू कर देगी जिससे की आईएनए सोलर ब्रांड के मिनीमम से लेकर 600 वाट तक के सोलर पैनल बाजार में उपलब्ध हो सकेंगे।

तीन ड्रग्स माफिया दबोचे

जयपुर। जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ शिवदासपुरा एवं शिप्रापथ इलाके में कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी की करने वाले तीन तस्करों को घर-दबोचा है। उनके पास से भारी मात्रा में गांजा जब्त किया और साथ ही ब्रिकी की राशि के हजारों रूपये और दुपहिया वाहन भी बरामद किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

भारी मात्रा में अवैध गांजा जब्त

वाले रिशेरा मुलोदिया (22) निवासी प्राणपुरा जयपुर प्राणीप, नरेश कुमार मीणा (28) निवासी हिंडोली जिला बूंदी हाल मालपुरा गेट जयपुर और बाबुलाल सांसी (58) निवासी त्रिवेणी नगर गोपालपुरा बाईपास शिप्रापथ जयपुर को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा 21 किलो 550 ग्राम, ब्रिकी की राशि 1 हजार 420 रूपये एवं परिवहन में प्रयुक्त दुपहिया वाहन बरामद किया है। पुलिस आरोपियों से अवैध मादक पदार्थ की खरीद-फरोख्त के बारे में पूछताछ करने में जुटी है।

श्रेया गुहा ने किया हीरापुरा बस टर्मिनल का निरीक्षण

जयपुर, (का.सं.)। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रेया गुहा ने सोमवार को अजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस टर्मिनल का निरीक्षण किया। उन्होंने जेडीए द्वारा 5.50 करोड़ रुपये की लागत से करवाये गए निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर निर्देश प्रदान किये हैं कि बस टर्मिनल को संचालित करने के लिए रोजवेज, जेसीटीएल, जयपुर मेट्रो, जेडीए, यातायात पुलिस, परिवहन विभाग एवं निजी बस ऑपरेटर्स से इसमें मदद करके योजना तैयार कर ताकि शीघ्र बस टर्मिनल का संचालन किया जा सके।

जनाना हॉस्पिटल में अंतरराष्ट्रीय नर्सिंग दिवस सेवा सप्ताह की शुरुआत

जयपुर। चांदपोल स्थित जनाना हॉस्पिटल में सोमवार से नर्सिंग ऑफिसर्स द्वारा अंतरराष्ट्रीय नर्सिंग दिवस 12 मई के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह के तहत परिंडा अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम प्रभारी रमेश सैनी ने बताया कि अभियान का शुभारंभ रजिस्ट्रार भारती के द्वारा पोस्टर विमोचन एवं परिंडे लगाकर किया गया। नर्सिंग कार्डिसल रजिस्ट्रार भारती ने प्रदेश के सभी नर्सिंग कर्मियों से आह्वान किया की अपने घर आँगन एवं अस्पतालों में परिंडे लगाकर आमजन की सेवार्थ बेजुबान पक्षियों का



सहारा बने। इस मौके पर नर्सिंग अधीक्षक सारिका शर्मा, पी.डी.मौना, ओपीडी प्रभारी रमेश सैनी, अनिल चौधरी, दौलत सिंह शेखावत, महावीर शर्मा, रमेश

तीन बदमाशों को अवैध हथियार सहित पकड़ा

जयपुर। ब्रह्मपुरी थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम जयपुर उत्तर (डीएसटी) ने ऑपरेशन एक्शन ऑगस्ट गन के तहत संयुक्त कार्रवाई करते हुए तीन बदमाशों को अवैध हथियार सहित पकड़ा है। पुलिस ने उनके पास से एक देशी पिस्टल मय मैगजीन और तीन जिंदा कारतूस भी जब्त किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

ऑपरेशन एक्शन ऑगस्ट गन (आग) के तहत ब्रह्मपुरी थाना पुलिस और डीएसटी उत्तर ने कार्रवाई करते हुए सिराज अहमद उर्फ बन्दूक निवासी ब्रह्मपुरी जयपुर, अयूब खान निवासी गलता कर दी है। पुलिस ने इनमें निवासी ब्रह्मपुरी को जलमहल की पाल से गिरफ्तार किया है। जिनके पास से एक देशी पिस्टल मय मैगजीन और तीन जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस आरोपियों से अवैध हथियार की खरीद-फरोख्त के बारे में पूछताछ की जा रही है।

आई.एम.ए. की स्टेट वर्किंग कमेटी की बैठक सम्पन्न



इंडियन मेडिकल एसोसियेशन (आईएमए) राजस्थान स्टेट ब्रांच की ओर से जेएमए हॉल में स्टेट वर्किंग कमेटी की मीटिंग एवं लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया।

जयपुर। इंडियन मेडिकल एसोसियेशन (आईएमए) राजस्थान स्टेट ब्रांच की ओर से जेएमए हॉल में स्टेट वर्किंग कमेटी की मीटिंग एवं लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। राज्य की लाभांश सभी आईएमए इकाइयों के अध्यक्ष, सचिव जोनल उपाध्यक्ष, जोनल सचिव और अन्य पदाधिकारियों ने इसमें भाग लिया। प्रमुख रूप से आईएमए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. अशोक शारदा, आईएमए राजस्थान के अध्यक्ष डॉ. रजनीश शर्मा, सचिव डॉ. पी.सी. गंध, निवर्तमान अध्यक्ष डॉ. सुनील चक्र, प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉ. एमपी शर्मा, कोषाध्यक्ष डॉ. एन.के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष डॉ. रूप सिंह, डॉ. बिशेरी बरीवाल, डॉ. फरियाद, डॉ.

ए.ए.न. हर्ष, डॉ. संजीव गुप्ता लीगल सेल अध्यक्ष डॉ. राहुल कट्टा सहित 80 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित हुए। मंच संचालन जयपुर सचिव डॉ. अनुराग शर्मा ने किया। इस गोष्ठी में डॉ. राजेश शर्मा, राजस्थान मेडिकल कार्डिसल रजिस्ट्रार एवं जॉइंट डायरेक्टर चिकित्सा विभाग राजस्थान को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। उनके साथ डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन संबंधित समस्याएं, झोलाछाप डॉक्टर द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव करने पर उचित कार्रवाई का सुझाव साझा किया। इसके अतिरिक्त कई वर्षों से लंबित विभिन्न समस्याएं जैसे सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याएं, चिकित्सा

व्यवसाय को उद्योग मानने की मांग, चिकित्सकों के ऊपर हिंसा रोकने का कानून लाने के लिए भी चर्चा हुई। मेडिकल वेक्टर के निस्तारण, बिजली की उचित दरें, निंगल विंडो लाइसेंस प्रचालित के लिए एच वी चर्चा हुई। हुआ जिनको की राज्य सरकार के समक्ष आई एम ए के प्रतिनिधि मंडल द्वारा उचित मंच पर प्रस्तुत किए जाने का निर्णय हुआ। साथ ही सरकारी क्षेत्र में सेवारत चिकित्सा और उनका केडर और वेतनमान फिक्सेशन तथा रजिडेंट डॉक्टर के ऊपर बिना जांच के अनुचित कार्यवाही को रोकने और उनके ड्यूटी के कार्यकाल को व्यवस्थित करने हेतु भी चर्चा हुई।

आठ महिलाओं की चैन तोड़ी

जयपुर। सांगानेर इलाके में कुछ महिलाओं को भागवत कथा में जाना भारी पड़ गया। अज्ञात महिला चैन स्चेनरों ने प्रसाद वितरण की लाईन में लग कर आठ महिलाओं के गले से लगभग 114 ग्राम सोना लूट लिया और मौके से फरार हो गई। वादादत की जानकारी मिलने के बाद कथा स्थल पर हंगामा मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरी महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर उनको तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि सांगानेर पिंजरापोल गोशाला में स्थित सुरभि भवन में 1 मई से 7 मई तक श्रीमद भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला-पुरुष कथा सुनने के लिए आते हैं। 4 मई को करीब बजे के बीच महिलाएं कतार में खड़ी होकर प्रसाद ले रही थीं, तभी भीड़ का फायदा उठाते हुए लुटेरी महिलाओं ने आठ महिलाओं के गले से सोने की चैन काट ली और फरार हुईं।

श्री भागवत कथा रघुनाथपुरी निवासी अलका शर्मा की 20 ग्राम की चैन, सीताराम कॉलोनी निवासी जित्ता सिंह की 15 ग्राम की चैन, नामदेव कॉलोनी निवासी रामलज्जा की 10 ग्राम की चैन, मेधा खंडेवालाल शिव कॉलोनी किसान मार्ग टॉक फाटक निवासी की 12 ग्राम की चैन प्रताप नगर निवासी मैना देवी की 15 चैन अज्ञात लुटेरी महिला चैन तोड़कर फरार हो गईं।

जीकेप की प्रदेश स्तरीय बैठक सम्पन्न


जयपुर। विकास अध्ययन संस्थान, झालाना जयपुर में गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद की प्रदेश स्तरीय बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में संस्था की ई पत्रिका का विमोचन पी एस वर्मा, पूर्व अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किया। साथ ही बैठक में सरकार द्वारा बी-2 बंधुवास पर आवंटित 906.7 वर्ग मीटर भूमि पर जीकेप भवन बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा भी हुई। गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद की बैठक में करौली और दौसा जिले के प्रतिनिधियों ने दो-दो करोड़ रुपए सहयोग राशि देने की भी घोषणा की है। साथ ही सभी जिलों से आए हुए जिला अध्यक्ष और संभाग प्रभारी की ओर से 8 लाख की सहयोग राशि भी प्राप्त हुई है। बैठक में प्रत्येक जिले के सहयोग की समीक्षा करके लक्ष्य निर्धारित भी किया गया है। संस्था के मुख्य संरक्षक गौरव बजाड, अध्यक्ष राज्य प्रशासनिक सेवा, आर के गुर्जर पूर्व अध्यक्ष जीकेप, ब्रह्म सिंह गुर्जर पूर्व अध्यक्ष आर पी एस सी, संस्थापक रामफूल गुर्जर, पूर्व प्रोफेसर पीएस वर्मा, राजेंद्र सिंह तंवर संस्था प्रदेशाध्यक्ष, सज्जन पोसवाल सदस्य कर्मचारी चयन आयोग, कुलदीप महुआ संयोजक शिक्षा ज्योति, उपाध्यक्ष मोहनलाल वर्मा, डॉ रूप सिंह पिनाडी, इतिहासकार शैतान सिंह, छीतरलाल कसाना संभाग प्रभारी कोटा, भंवर लाल गुर्जर संभाग चूरू, झालावाड जिला अध्यक्ष ललित गुर्जर मीडिया प्रभारी रामेश्वर प्रसाद गुर्जर सहित गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद के कई अधिकारियों कर्मचारी मौजूद रहे।

16 कला विधाएं सीखेंगे जूनियर्स

जयपुर, (का.सं.)। हर वर्ष की भांति जवाहर कला केन्द्र की ओर से 16 मई से 20 जून तक जूनियर समर प्रोग्राम (केम्प) का आयोजन किया जा रहा है। अलग-अलग आयु वर्ग के बच्चे इसमें हिस्सा लेकर अपनी रचनात्मकता को नया आयाम दे सकेंगे। केम्प में विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न कलात्मक विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैम्प के लिए आवेदन पूर्णतः ऑनलाइन कर दिए गए हैं। केन्द्र की वेबसाइट पर और सोशल मीडिया अकाउंट पर सभी विधाओं के गुगल फॉर्म लिंक उपलब्ध हैं। कैम्प में प्रवेश पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। 8 से 17 वर्ष तक के बच्चे गायन, गिटार, तबला, पियानो, वॉयलिन, लोक नृत्य, कथक, कंटेम्परी डांस के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 1500 रुपए प्रति व्यक्ति रहेगा।

महात्मा गांधी स्कूल में प्रवेश शुरू

जयपुर, (का.सं.)। महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय सेक्टर पांच प्रताप नगर स्कूल में ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। यह जानकारी देते हुए स्कूल की प्रिंसिपल सीमा शुक्ला ने बताया कि कक्षा नर्सरी से दसवीं तक के ऑनलाइन आवेदन 7 से 13 मई तक किये जा सकेंगे जिसकी लांटेरी 14 मई को निकाली जायेगी।



World Asthma Day

Millions of people, all over the world, suffer from *Asthma*, which means that most people know someone who suffers from it. Those, who have someone with asthma in their lives, are typically familiar with the 'pastest' sound of the inhalers, that make a relatively normal day-to-day life possible for the ones who use them. *World Asthma Day* is dedicated to raising awareness about this pernicious disease. And it also seeks to bring awareness and advanced asthma care to sufferers throughout the world.

#PARENTING

5 best methods to teach language skills to your toddler

Training children's language skills is a rewarding journey that requires patience, precision and creativity



Teaching language basics is an incredible journey during a child's early life, laying the foundation for their communication and cognitive development. As parents, nurturing children's language skills is important, and thankfully, there are effective ways to facilitate this process. Here we explore five proven ways to nurture your little one's language skills.

Conversational talks

Engage your child in *engaging conversations* throughout the day. As you do, describe activities, write about things around the house, and talk about daily activities. This constant use of language helps children effortlessly grasp vocabulary, sentence structure, and contextual understanding. Furthermore, responding positively to attempts at dialogue and communication strengthens their confidence and encourages language exploration.

Always read aloud

Using *teaching materials*, designed specifically for children's language development. Interactive apps, educational videos, and language learning games provide fun and engaging ways for children to expand their language skills. Choose high-quality, age-appropriate content that matches your child's interests and developmental stage. These features complement traditional approaches by identifying words, tones, and linguistic patterns in an engaging way.

Sing and make melodious music

Music and rhythm are powerful memory devices that contribute to language acquisition. Sing nursery rhymes, play nursery rhymes, and do silly things together! Phonological patterns and repetition in music make it easier to recognize pitch and pronunciation. Additionally, the addition of gestures and movement enhances *kinesthetic* learning, making language learning a multisensory experience, that captures children's attention and improves retention.

Create a multilingual environment

Surround your child with a *multilingual environment* at home and outside. Plan play dates with your classmates, enroll in language immersion programs, if possible, and explore cultural experiences together. Speaking languages, and dialects provides linguistic variation and cultural awareness. Additionally, encourage activities such as drawing, activities and mind games, that stimulate language use and creativity in an unstructured natural environment. Training children's language skills is a rewarding journey that requires patience, precision and creativity. By using these strategies, engaging conversations, reading aloud, music and rhythms, using educational materials, and creating a multilingual environment, parents can empower their children to become confident and competent communicators.



OF Ragging and Other Mischiefs



Shailaza Singh
Published author, poet and a YouTuber

his seniors and juniors, most of whom I knew from years of postings. Some of them had taken to singing on the stage while the others were busy sharing jokes and laughing. Then, as was the custom in their college, there were some backbenchers too, who were commenting quietly on everything that was going on and having their own party.

My purpose was simple. All I wanted to do was know about the fun that they had, in their time in AFMC. Acting MBBS is not easy and then these were officers of the Indian army, which is known for its discipline and tough postings. But these people were experts in taking it all in their stride and making, as the popular slogan goes in the army, 'jungle mein mangal.'

I walked to a group of men, who were sitting in a corner and drinking beer. I asked them about their fondest memories of AFMC. Basi Menon, an anaesthetist from G batch, said, "I remember, in 1969, I got chicken pox in the third year of AFMC. So, I was under a lot of scrutiny and observation in the isolation ward. Some of the students even envied me and tried to hug me and get it too so that they wouldn't have to give any exams but most of them were unsuccessful in getting the disease. One day, this friend of mine came in, four days later with mumps. Another fellow classmate and his friend turned up in the ward after crashing his motorcycle while traveling from Mahabaleshwar to Pune. I was the unofficial mechanic for all the motor bikes in the college. All the damaged, broken bikes would come to me. So, even though I had chicken pox, I still had to go and pick up the bike because I was the only one who could repair it.

When I walked into the Stardom Resort, where Jalsa 2024 was being held, it was like walking back into time and meeting my own childhood. I could see my father's friends, his classmates,

Once upon a time, in the land of Army existed a place called AFMC. It was a place full of cadavers, doctors, classes, jokes and a lot of FUN. The Armed Forces Medical College was not just a college, it was a 'way of life' for thousands, who have passed through its doors.


#TALES OF AFMC



Moreover, it is not like chicken pox is a very serious disease. It is just that people don't like you because you are all full of pus and pustules. And they are terrified of you when you walk in somewhere. After a lot of whispered discussions in the medical ward, my friend, who managed to get the chicken pox at the same time as me (by being very physically attached to me), decided I could go. Everyone in the ward knew what was going on but they didn't say anything. So, I slipped out quietly. That evening, during the rollcall, the officer-in-charge came to see the four of us in the ward. My bed was occupied by the pillows, which were completely covered by the quilt. When he tried to talk to me, the man next to me was the son of the Air Chief and he told

the officer, "Sir, please don't disturb him. He is so very exhausted and needs rest." The officer was convinced and told him to let him

know if there was any problem and walked away. I stole back into the ward the next morning and quietly slipped into my bed." It seems that even in the army examination scared every one. Basi Menon says, "Ashish Mitra of G batch could do anything to avoid sitting for examinations. Poor thing, it was not his fault. He had accidentally cleared the entrance examination since he had such a photographic memory. But he wasn't a doctor material. He would have done really well in journalism or some similar field. He was perturbed when the first semester exams were announced. He decided to get a fever by putting onions in his armpit for a day or two. He developed the fever and tried to get admitted into the ward. But most of the officers knew what he



PART:1

a waiter in something called B Mess. My impression of the college straight away zoomed! Waiters speaking English and looking like Amitabh Bachchan! I had also arrived from Hyderabad, wearing what I thought was the epitome of fashion, brown trousers with flares at the bottom, bell-bottoms! Apparently, the new fashion of narrow trousers had not yet reached Hyderabad. Not only was I soon rushing to the tailor near the cycle shop for alterations, but also, sitting with a blade ripping of back pocket labels like Playboy, Newman, and Dragon etc., from my trousers.

I met another fresher who had already been initiated into all the nuances of behaving as a penguin and was soon educating me. In fact, he was teaching me what 'third button' was. When some seniors saw us and presuming that a fresher was ragging another fresher, subjected him to a lot of sit-ups and push-ups! We were then duly marched off to 4ToP, where we had been granted an audience with a character who was casually doing pull-ups while hanging from the top floor balcony, on the outside! I politely declined when he offered to teach me how to overcome the fear of heights and instead took the option of going in for the zero cut. This character also insisted that I retain one side of what he called 'fungs' on the upper lip and this strange look acted as an incentive for other seniors to have me front roll and visit exotic hill stations in each room. Thankfully, after a round of Shimla, Mt. Abu and Darjeeling, we reached the ward's office and I was allotted 5 Top 4. The dean had briefed the various sports options available to the new candidates and I was soon on the track, racing against a P batcher for a place in the relay team. The sports guys looked out for us 'freshers' and there was a dictum that the sports field was exempt from any type of ragging."

.To be continued

rajeshsharma1049@gmail.com

#WORK-LIFE

3 Tricks To Feel Less Anxious @ Work

By writing things down, being guided by deadlines, and communicating often, anyone can reduce their anxiety at work.

Anything about work can feel all-consuming. When you're really anxious about your job, you may think about it constantly, but feel paralyzed, when it comes to actually accomplishing tasks or improving how you feel. This pattern of anxiety, followed by paralysis, hurts your productivity, takes a huge toll on your mental health, and also can impact your physical health. For instance, feelings such as anxiety, sadness, and loneliness have been known to negatively impact sleep, increase the risk of stroke, and increase the risk of developing dementia.

Here are top three tips to help you feel less anxious at work.

Write Everything Down

A major cause for job-related anxiety is being worried that you're forgetting something. To counteract that fear, we recommend having a 'written list' of any tasks that you need to accomplish. You could write these out on a piece of paper, record them in a task management system, or even keep them in your calendar. And to help alleviate anxiety even more, we recommend the following to-do list for management tips.

- Avoid putting fake deadlines on your tasks so that you end up with a massive amount of 'overdue' items that aren't actually late.
- Separate out your random ideas of things that you might want to do at some point from the must-do tasks. David Allen calls this having a 'Some day/Maybe List.' This reduces task clutter and increases clarity.
- Review your centralized list on a weekly basis and decide which are the most important tasks for the next seven days. You can then put those on a weekly task list so that you have fewer items to focus on completing and feel less overwhelmed by the number of items still left to do.

Be Deadline-Guided

We don't recommend having a 'deadline-driven' approach to your work because this can lead to hoping from one fire to another, feeling




burned out, and having extremely low productivity, when you're not absolutely forced to get something done. This creates anxiety because you associate meeting a deadline with extreme stress and sleep deprivation, and because you're always feeling behind.

However, we do recommend being deadline-guided. What this means is that you're conscious of what really needs to get done. For instance, you should know whether a task is an essential item and has a firm due date. Then, with this knowledge in mind, plan time in your schedule to get that work done ahead of the actual deadline. To decrease your anxiety even more, we also recommend these planning tips.

- Break down larger projects into smaller tasks so that you have clarity on what to do when you reach your project time. This also makes it easier to restart a project after any interruptions.
 - If you can't find time on your calendar to get a project done, make time by cancelling or rescheduling meetings, delegating work off your plate, or asking for a deadline extension.
 - Set up intermediate deadlines with your boss or a colleague so that you're forced to make progress before the final deadline.
- Communicate Early & Often**
- One of the major causes of anxiety at work isn't necessarily the work itself. It's the stress created when you feel like you're letting people down. This anxiety compounds when you avoid communicating to others about what's going on. When you don't communicate, you not only feel bad about the incomplete items but also the unanswered emails.
- To avoid the anxiety created by people incessantly following up with you, simply reply.
- To lower communication anxiety, we highly recommend.
- Follow up with stakeholders before they reach out to you. This reduces your sense of feeling pressured and ensures them that you haven't forgotten about the work.
 - Don't make promises of specific deadlines unless you need to do so and actually plan to keep them. For instance, you can say something like "I'll get this to you soon" instead of "I'll get this to you on Friday."
 - If you're not going to meet a deadline, let others know as soon as possible. They may not be happy, but at least they have time to prepare. If you don't share until the last minute that you're going to miss a deadline, you create more anxiety for yourself and them.



THE WALL




BABY BLUES



By Rick Kirkman & Jerry Scott

ZITS



By Jerry Scott & Jim Borgman

रोडवेज बस की टक्कर से असंतुलित होकर पलटी कार, तीन की मौत

10 यात्री गंभीर रूप से घायल, जयपुर रैफर, गाय को बचाने के दौरान हुआ हादसा

निवाई, (निसं)। बरोनी थानान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरोनी पुलिस के समीप सोमवार को दोपहर में एक रोडवेज बस की टक्कर से एक कार संतुलन खराब होने से वह पलट गई। हादसे में कार में सवार दो महिला व एक पुरुष की मौत हो गई व 10 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।

थानाधिकारी ओमप्रकाश ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरोनी पुलिस के समीप रोडवेज बस की टक्कर से एक मारुति वैन का संतुलन खराब होने से वह पलट गई, जिससे वैन में सवार सीता देवी पति शैतान मीणा निवासी फतेह रामपुरा थाना माधोराजपुरा, श्रवणी देवी पत्नी बलराम मीणा व सीताराम पुत्र छोटाराम मीणा निवासी फतेहरामपुरा की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में भेरू पुत्र रामप्रसाद मीणा, भगवती पत्नी किशन मीणा निवासी मोहनपुरा, प्रहलाद पुत्र श्यामाथ मीणा, शैतान पुत्र छोटाराम मीणा, मोरादेवी पत्नी गंगाविशाल मीणा निवासी



बरोनी पुलिस के पास रोडवेज बस की टक्कर से कार पलट गई।

फतेहरामपुरा, लोकेश पुत्र प्रभुलाल देवी पत्नी श्यामजीलाल निवासी हो गए सभी घायलों को उपचार के लिए टोंक सआदत अस्पताल में भर्ती

रैफर निवासी वार्ड नं. 4 चाकसू, मुंजी तामडिया चाकसू गंभीर रूप से घायल लिए टोंक सआदत अस्पताल में भर्ती

कार सवार यात्री चाकसू से मण्डावर करीरिया में तीये की बैठक में शामिल होने जा रहे थे

करवाया, जहां पर घायलों की चिंताजनक स्थिति होने पर चिकित्सकों ने जयपुर रैफर कर दिया। उन्होंने बताया कि घायल श्रवणी देवी व सीताराम मीणा की जयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई।

वैन के चालक ने बताया कि कार में सवार सभी यात्री चाकसू से गांव मण्डावर करीरिया में एक तीये की बैठक में शामिल होने के लिए वैन कार से जा रहे थे। उन्होंने बताया कि बरोनी पुलिस के समीप वैन के आगे चल रही रोडवेज बस के सामने एक गाय आ गई जिसे बचाने के दौरान रोडवेज बस ने कार के साईड में टक्कर मार दी।

नारायण गुर्जर हत्याकांड मामले में हत्या के कारणों का खुलासा

मारपीट का वीडियो नारायण ने बना लिया था, जिसे नारायण व एक-दो युवकों ने वायरल कर दिया था



मांडल थाना क्षेत्र में हुए नारायण गुर्जर हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार दो युवक।

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के मांडल थाना क्षेत्र में हुए नारायण गुर्जर हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी सहित दो युवकों ने पुलिस पूछताछ में हत्या के कारणों का खुलासा किया है। इस बीच, जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के आदेश पर गठित एसआईटी ने दोनों आरोपितों से करीब पांच घंटे की गहन पूछताछ की।

मांडल पुलिस के अनुसार कोलीखेड़ा निवासी नारायणलाल गुर्जर 22 अप्रैल की शाम कार बजे शहीद की रिपोर्ट उसके मामा ने शाहपुरा थाने में दर्ज करावाई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि उसकी भांजी जन्म से ही उसके पास रह रही है, जो अभी 16 वर्ष 9 माह की है। वह चार मई को वह सुबह साढ़े पांच बजे मॉर्निंग वॉक पर जाने की कहकर घर से निकली थी, जो नहीं लौटी। परिवारी ने रिपोर्ट में बताया कि उसके फोन पर मैसेज कर कहा कि एक लेटर किताब मे रखकर आ रही हूँ। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

गिरफ्तार मुख्य आरोपी सहित दो युवकों ने पुलिस पूछताछ में हत्या के कारणों का खुलासा किया

तहत केस दर्ज किया था। इस वारदात में लिच व दो और आरोपितों देवरिया, मांडल के मदन सिंह (24) पुत्र तख्त सिंह उर्फ तेज सिंह और राकेश (22) पुत्र गणपत सुधार निवासी लखारा चौक के पास, माण्डल को मध्यप्रदेश में नीमच-मंदसौर हाइवे से हिरासत में लिया। दोनों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया, जिन्हें न्यायाधीशों के सामने पेश कर चार दिन के रिमांड पर लिया गया है।

पूछताछ में आरोपित मदन सिंह व राकेश ने हत्या के दो कारण कबूल किये हैं। पुलिस के अनुसार, दो साल पहले एससी के लड़कों ने आरोपितों को पीटा था। इसका वीडियो नारायण ने बना लिया था। इसके बाद वह वीडियो 23 तारीख को नारायण व एक-दो युवकों ने इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया था। इसके चलते आरोपितों ने माना कि उनका वर्चस्व डाउन हो गया है। इसे लेकर

आरोपित पक्ष, नारायण से ड्रेस्ता रखता था। इसके अलावा भी एक-डेड साल पहले मदन के साथ मारपीट हुई थी, तब उसके फिर में 12 टाके लगे थे। इस घटना को लेकर भी मदन क्षुब्ध था और बदले की फिराक में था। इन दोनों कारणों के चलते आरोपितों ने षडयंत्रपूर्वक बदले की भावना से नारायण की हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि नारायण के कल से पहले उसकी एक बाल अपचारी ने रैकी की। उसी ने अन्य आरोपितों को नारायण की लोकेशन दी थी। इसके बाद ये आरोपित नारायण के पीछे लग गये और कोलीखेड़ा के पास मोड़ पर उसे कार की टक्कर लगाने के बाद बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के आदेश से गठित एसआईटी टीम के प्रभारी डीएसपी सवर श्यामसुंदर विश्वासी सहित अन्य अधिकारियों ने गिरफ्तार दोनों आरोपितों से पांच घंटे अलग-अलग पूछताछ की। यह पूछताछ सुभाषनगर थाने में चली। उधर, पुलिस अब इन दो आरोपितों से पूछताछ कर प्रकरण में मोबाइल सहित अन्य बरामदगियां कर के प्रयास कर रही है। इस हत्याकांड से जुड़े दो आरोपित पहले गिरफ्तार हो चुके हैं।

जेल में बंदी ने एसटीडी कियोस्क बूथ की स्क्रीन तोड़ी

अजमेर, (कासं)। अजमेर हाईसिक्योरिटी जेल में बंद गैंगस्टर राजू टेहट की हत्या के विचाराधीन बंदी ने सोमवार को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। आरोपी ने जेल में बने एसटीडी कियोस्क पर बात करने के दौरान आवेश में आकर पीआईसीएस (एसटीडी) कियोस्क की स्क्रीन को मुक्का मारकर तोड़ दिया। जेल प्रहरी ने मामले की सूचना जेल अधीक्षक पारस जागिड़ को दी। अधीक्षक के निर्देश पर जेल प्रहरी ने सिविल लाइन थाने में घमकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज

कर जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाना पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार जेल प्रहरी जिला सीकर निवासी विष्णु कुमार मीणा ने जेल अधीक्षक के दिशा निर्देशों पर थाने लिखित शिकायत देते हुए जेल में बंद विचाराधीन बंदी के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज कराया है। जेल प्रहरी मीणा ने बताया कि जेल में निरुद्ध बंदियों को उनके परिवारों से वार्ता करवाने के लिए प्रत्येक बार्ड में प्रिजन्स इनमेट कॉलिंग सिस्टम (एसटीडी) कियोस्क लगे हुए हैं। हाई सिक्योरिटी जेल के बार्ड नंबर एक में निरुद्ध विचाराधीन बंदी जिला बीकानेर

निवासी गणेश ओझा पुत्र महावीर प्रसाद ने एसटीडी पर वार्ता के दौरान अचानक गुस्से में आकर पीआईसीएस एसटीडी कियोस्क की स्क्रीन को मुक्का मारकर तोड़ दिया। इसके बाद जेल प्रहरी हनुमानराम द्वारा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की सूचना जेल अधीक्षक पारस जागिड़ सहित अन्य अधिकारियों को दी गई। बातचीत के दौरान फोन का नेटवर्क गायब होने से कॉल कट गया था, जिसके चलते गुस्से में आकर आरोपी ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। हालांकि इस पूरे मामले की जांच सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा की जा रही है।

की जांच हेड कॉन्स्टेबल हरिराम के द्वारा की जा रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी बंदी गणेश ओझा गैंगस्टर राजू टेहट की हत्या के मामले में अजमेर जेल में बंद है। जेल प्रशासन द्वारा निरुद्ध बंदियों को उनके परिवार से प्रतिदिन 5 मिनट के लिए बात करवाई जाती है। गणेश ओझा को भी उसके परिवारों से बात करवाई गई थी। बातचीत के दौरान फोन का नेटवर्क गायब होने से कॉल कट गया था, जिसके चलते गुस्से में आकर आरोपी ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। हालांकि इस पूरे मामले की जांच सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा की जा रही है।

किशोरी लापता

भीलवाड़ा, (निसं)। शाहपुरा में मॉर्निंग वॉक पर निकली किशोरी लापता हो गई। वह कपड़े, सैस और सोने की चेन भी साथ ले गई। किशोरी के अपहरण की रिपोर्ट उसके मामा ने शाहपुरा थाने में दर्ज करावाई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि उसकी भांजी जन्म से ही उसके पास रह रही है, जो अभी 16 वर्ष 9 माह की है। वह चार मई को वह सुबह साढ़े पांच बजे मॉर्निंग वॉक पर जाने की कहकर घर से निकली थी, जो नहीं लौटी। परिवारी ने रिपोर्ट में बताया कि उसके फोन पर मैसेज कर कहा कि एक लेटर किताब मे रखकर आ रही हूँ। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

महेन्द्र सारण का फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले मुख्य सरगना सहित चार गिरफ्तार

महेन्द्र सारण ने विदेशी नम्बरों से कॉल करके लोगों को धमकी देकर फिरौती मांगी

चूरू, (कासं)। पुलिस थाना सरदारशहर की टीम ने अपराधी महेन्द्र सारण का फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले मुख्य सरगना सहित चार जनों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक चूरू जय यादव ने बताया कि 1 मई 2024 को थानाधिकारी सरदारशहर को सूचना प्राप्त हुई कि महेन्द्र सारण पुत्र चानगमल जाट उम्र 26 साल निवासी सवाई छोटी (सवाई बास डेलाना) पुलिस थाना सरदारशहर जिला चूरू जिसके विरुद्ध लूट, मारपीट, अपहरण जैसे संगीन घराओं में प्रकरण दर्ज है। उसके खिलाफ न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश एसटी एसटी एक्ट (अत्याचार निवारण) प्रकरण चूरू द्वारा गिरफ्तारी वार्ंट जारी किया हुआ है, जो फरार चल रहा है तथा रोहित गोदारा गैंग के सम्पर्क में है।



पुलिस थाना सरदारशहर की टीम ने अपराधी महेन्द्र सारण का फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले मुख्य सरगना सहित चार जनों को गिरफ्तार किया

व धरपकड़ हेतु जगह-जगह दबिश देकर तलाश शुरू की गई। टीम द्वारा फर्जी पासपोर्ट बनाने में तथा फर्जी कागजात तैयार करने का मुख्य सरगना ओमप्रकाश पारीक पुत्र मालाराम निवासी रोलसाबसर पुलिस थाना सदर फतेहपुर जिला

सीकर एवं सहयोगी कम्प्यूटर ऑपरेटर विजय अग्रवाल पुत्र जगदीश अग्रवाल निवासी वार्ड नम्बर 48 टीबोरो को मोहल्ला, फतेहपुर सहित पासपोर्ट वैरिफिकेशन के लिये फर्जी गवाह बनने वाले आरोपी महबूब कुरेशी पुत्र इब्राहिम निवासी जामा

महेन्द्र अपने आपको लक्ष्मणगढ़ का बताकर फर्जी नाम-पता से पासपोर्ट बना औमान भाग गया

मस्जिद के पास, वार्ड नम्बर नौ लक्ष्मणगढ़ पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर व सिकन्दर पुत्र याक़ुब काजी उम्र 55 साल निवासी कब्रिस्तान के पास, वार्ड नम्बर चार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर को सीकर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है।

मुख्य सरगना ओमप्रकाश पारीक जिसने कल्या फतेहपुर में पासपोर्ट बनाने की दुकान कर रखी है जिसमें कार्य करने के लिये कम्प्यूटर ऑपरेटर विजय अग्रवाल नियुक्त कर रखा है। वह कम्प्यूटर व रंगीन प्रिंटर की सहायता से मूल दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ कर फर्जी दस्तावेज आधार, जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास आदि तैयार करके बदले में अधिक राशि वसूल करता था। आरोपी महबूब व सिकन्दर पासपोर्ट ईन्वारी में 3 फर्जी गवाह बनने का काम करते हैं, जिनमें मुल्जिम महेन्द्र जाट का रमेश जाट के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनाया, जिसके जरिये वह विदेश औमान भाग गया।

राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 12 को

अजमेर, (कासं)। राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 12 मई को आयोजित प्रदेश भर में 60 परीक्षा केंद्रों सैकंडरी और सीनियर सैकंडरी स्तर के करीब 11 हजार 414 विद्यार्थी परीक्षा देंगे।

बोर्ड प्रशासक एवं संभागीय

साठ केंद्रों पर 11 हजार 414 विद्यार्थी देगे परीक्षा

आयुक्त महेश चन्द्र शर्मा ने बताया कि राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2024 मई को प्रदेश भर में बनाए गए 60 केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा कोसभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि परीक्षा में कुल 11 हजार 414 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं, जिनमें से दसवीं कक्षा वर्ग के 7 हजार 646 तथा बारहवीं कक्षा वर्ग के 3 हजार 768 विद्यार्थी हैं, 12वीं कक्षा वर्ग से 1 हजार 634, वाणिज्य वर्ग से 172 तथा विज्ञान वर्ग से 1 हजार 18 विद्यार्थी परीक्षा देंगे।

शादी के दो दिन बाद फरार हुई दुल्हन

युवक ने लाखों रुपए देकर शादी की थी, जोधपुर की बनाइ पुलिस दुल्हन और उसके रिश्तेदारों की तलाश कर रही है

जोधपुर, (कासं)। शादी के दो दिन बाद ही दुल्हन अन्य युवक के साथ भाग गई। युवक ने लाखों रुपए देकर शादी की थी। जोधपुर की बनाइ पुलिस दुल्हन और उसके रिश्तेदारों की तलाश कर रही है। बनाइ पुलिस से मिली जानकारी अनुसार लुणी थाना इलाके के सर गांव निवासी भंवरसिंह ने बालोतरा के कल्याणपुर निवासी बाबूसिंह, गुड्डी कंवर, प्रेम और अन्य 4-5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि उसकी चाची अन्नू कंवर ने अपने रिश्ते में बहनेवाई बाबूसिंह से बात कर उसके रिश्ते की बात की थी। उन्होंने गोटन के पास खारिया की गुड्डी कंवर से शादी करवाने का कहा था। लड़की के घरवालों ने गरीब होने के चलते शादी के लिए तीन लाख रुपए की मांग की थी। इसके बाद 16 अप्रैल को धोखाधड़ी फांटा के पास कॉलोनी के एक मकान में भंवरसिंह और गुड्डी की सगाई कराई। सगाई के बाद लड़की वालों को 30 हजार रुपए दिए गए। 18 अप्रैल को शादी के बाद उन्हें 2

लाख 55 हजार और 20 अप्रैल को फोन-पे से 15 हजार रुपए दिए थे। यह राशि जितेन्द्र चौधरी के खाते में जमा कराया गई थी। शादी के दो दिन बाद बाबूसिंह व प्रेम ने उसे फोन पर पत्नी के साथ खोखारिया फांटा के पास मकान में बुलाया। पौडित और उसकी पत्नी दोनों की बाइक पर वहां जा रहे थे। सारण नगर पुल पर उसकी पत्नी ने बाइक रुकवाई। इसी दौरान वहां नकाबपोश बाइक सवार युवक आया और उसकी पत्नी को बाइक पर बैठाकर फरार हो गया। पौडित ने इस संबंध में जब बाबूसिंह को फोन किया और पत्नी को लाने के लिए कहा। उसने जवाब नहीं दिया और फोन बंद कर दिया। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

अजमेर, (कासं)। जिला एवं सेशन न्यायाधीश संगीता शर्मा ने सोमवार को लूट व हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दोनों को 25-25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है। मृतक सज्जी बेचने का काम करती थी। आरोपियों ने लूट के इरादे से उसकी हत्या कर लाश को प्लास्टिक के कट्टे में बांधकर कुएं में डाल दिया था। मामला आदर्श नगर थाना क्षेत्र का करीब आठ साल पुराना है।

लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि घटना 20 दिसंबर 2017 की है। परिवारी चैना सिंह ने आदर्श नगर थाने को जेलेशन चिकित्सालय चौरधर में एक रिपोर्ट इस आशय की दी कि उसकी मां पांचो देवी पत्नी धना सिंह रौकी परिषदा पालर में सज्जी बेचने गई थी, कई पता नहीं चला, जबकि रामदेव पुत्र माला ने उसकी मां उसी दी शाम को देखा था। उसके बाद किसी ने भी नहीं देखा। 21 दिसंबर 2017 को लुगणा 12 बजे के छोटे भाई की बहू सुरमा देवी व भतीजे नरेन्द्र सिंह ने तलाश के दौरान बताया कि पालर तालाब के पास बांडयाडी बडिया झुत्तरी के अधूरे सूखे

कुएं में प्लास्टिक के कट्टे में बंद लाश पड़ी मिली थी। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर जांच की थी। पांचो देवी की ओढ़नी से गला घोटकर हत्या की गई थी। पांचो देवी के पहने हुए गहने, कड़ी, आंवला, बाली, हाथ के कड़े, कंगन व सिर में पहना हुआ सोने का बोंबर व 5-6 हजार रुपये नकद नहीं मिले, जो संभव है आरोपितों ने लूट लिए और उसकी मां की लाश को कट्टे में बांधकर उक्त सूखे कुएं में डाल दी।

पाराशर ने बताया कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 27 साक्षी को परीक्षित करवाया गया और कुल 17 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए तथा अनुसंधान अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक के दौरान अभियुक्तों से बरामद तथ्यों तथा अभियुक्तों के गांव दारापुर में छुपा रखे गहने सहित अन्य सामान और प्रकरण में मोबाइल फोरेंसिक यूनिट अजमेर द्वारा तैयार क्राइम सीन रिपोर्ट व फोटोग्राफ पत्रवाली सहित सबूतों दस्तावेज व साक्षी के आधार पर आरोपियों को अदालत ने दोषी मानते हुए धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित करने की सजा सुनाई।

अधेड़ की हत्या मामले का खुलासा, आरोपी प्रेमिका गिरफ्तार

बून्दी, (निसं)। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के जवाहर नगर में 3 मई को बंद कमरे में हुई 44 वर्षीय व्यक्ति की हत्या का कोतवाली पुलिस व जिला स्पेशल टीम ने 36 घंटे में खुलासा कर आरोपी प्रेमिका को गिरफ्तार किया है। वहीं वारदात में शामिल महिला के पति की तलाश के लिए टीमें झालावाड़ व मध्यप्रदेश के लिए रवाना की है।

जिला पुलिस अधीक्षक बून्दी हनुमान प्रसाद आई.पी.एस. ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई हत्या की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुये आरोपी महिला धांपू बाई उर्फ सोरम बाई उर्फ मोरम बाई को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि हत्या अवैध संबंध व झगड़े की राशि लेने को लेकर की गई थी। हत्या में महिला का साथ देने वाले पति की भी तलाश जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि झालावाड़ सूचना मिली कि जवाहर कॉलोनी बून्दी स्थित एक कमरे पर तलाश हुआ है तथा कमरे के कमरे का ताला तुड़वाकर कमरा खोला गया तो कमरे के अंदर एक मृत व्यक्ति, जिसके हाथ पैर धोती/साफी से बांधे



पुलिस ने 44 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपी प्रेमिका को गिरफ्तार किया।

अधीक्षक उमा शर्मा व कोतवाली थानाधिकारी तेजपाल मय जांत्ला मौके पर पहुंचे। मौके पर मोबाइल एफएसएल टीम को बुलाया गया। बन्द कमरे का ताला तुड़वाकर कमरा खोला गया तो कमरे के अंदर एक मृत व्यक्ति, जिसके हाथ पैर धोती/साफी से बांधे

हुए थे तथा गले में साफी का फंडा लगाकर गांठ लगाई हुई थी। मकान मालिक से जानकारी करने पर मृत व्यक्ति की पहचान मोहनलाल पुत्र मांगीलाल राजपूत निवासी नीमखेड़ा थाना घाटोली जिला झालावाड़ के रूप में हुई। मकान मालिक द्वारा बताया गया

कि मृतक करीब एक साल से बून्दी में उनके मकान में कमरा किराये से लेकर रह रहा था तथा बून्दी शहर में कारीगरी का कार्य करता था। मृतक के पास 15-20 दिन में गठित एक महिला आती थी जो स्वयं को मोहनलाल की पत्नी धांपू बाई होना बताती थी। जानकारी करने

पति के साथ मिलकर प्रेमिका ने की थी हत्या

प्रेम प्रसंग व झगड़े की राशि देने को लेकर विवाद हुआ था

प्रसमने आया कि एक मई रात्रि नौ बजे करीब तक मोहनलाल के पास उक्त महिला का मृतक के कमरे पर होना सामने आया। इसके बाद पुलिस ने परिजनों को बून्दी बुलाया गया एवं लाश का पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक के भतीजे भगवान सिंह व मृतक की पत्नी बादाम बाई द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।

महिला धांपू बाई उर्फ सोरम बाई उर्फ मोरम बाई मृतक का मोबाइल फोन, कानों की सोने की मुकिया, नकद रुपये व धरेलू सामान लेकर आती थी। टीम द्वारा आरोपित महिला धांपू बाई उर्फ सोरम बाई उर्फ मोरम बाई को डिटेन किया और कोतवाली लेकर आई और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया।

प्रथमदृष्टया पूछताछ में सामने आया कि महिला के मृतक मोहनलाल से प्रेम संबंध होने के कारण शादीशुदा पति द्वारा झगड़ की राशि देने का दबाव बनाने तथा मोहनलाल द्वारा झगड़े की राशि नहीं देने से आरोपियों द्वारा अपने पति के साथ षडयंत्र रचकर मोहनलाल की हत्या करना सामने के भतीजे भगवान सिंह व मृतक के पत्नी मितलकर मोहनलाल के साथ पैसे देने की लेकर झगड़ा किया तथा मुंह में कपड़ा दूंसकर गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में उसकी धोती व साफी से हाथ पैर बांधकर मौके से सारा सामान लेकर फरार हो गई। महिला के पति की तलाश हेतु पुनः टीम झालावाड़, मध्यप्रदेश रवाना की गई है। मामले में अनुसंधान जारी है।

संक्षिप्त

अवैध खनन करते दो गिरफ्तार

खैरथल, (निर्स)। खैरथल तिजारा जिले के पुलिस थाना ततारपुर ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध खनन कर खनिज संपदा पत्थर चोरी करते दो जनों को एक जेसीबी व तीन ट्रैक्टर ट्राली के साथ गिरफ्तार किया है। ततारपुर थाना पुलिस ने बताया कि थाना अधिकारी अंकेश कुमार ने महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रंज के द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध 100 दिवसीय चलाए गए राज्य स्तरीय अभियान एवं जिला पुलिस अधिकारी के निर्देशन में चलाए जा रहे हैं बांछित अपराधियों के अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध खनन कर खनिज संपदा पत्थर चोरी करते हुए एक जेसीबी व तीन ट्रैक्टर ट्राली को जप्त करने के साथ चालक अंकित पुत्र ईश्वर जाति अहीर व महिला पुत्र भागीरथ अहीर गोपीपुरा पुलिस थाना ततारपुर को गिरफ्तार किया है।

पिस्तोल दिखाकर लाखों की लूट

टोंक, (निर्स)। थाना कोतवली के डाईट रोड पर स्थित सूर्य नगर कॉलोनी में बीती रात दो व्यक्तिनों ने मध्य रात्रि एक मकान में घुसकर वहां निवास कर रहे 16 वर्षीय लडका अमान पुत्र अब्दुल हमीद को कनपटी पर पिस्तोल रखकर उसके हाथ-पैर बांध दिये तथा घर में रखे 20,40,000 रुपये व जेवरात की लूट का मामला सामने आया। कोतवली थानाधिकारी भंवरलाल ने बताया कि बच्चे के माता-पिता किसी विवाह समारोह में शहर से आकर हुए थे तथा घर में रखी राशि जो किसी जमीन के सोदे से प्राप्त की गई थी। वही पुलिस अधिकारी, एफएएसएल टीम सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लगे तथा अनुसंधान जारी है।

रक्तदान शिविर आयोजित

टोंक, (निर्स)। इस चिलचिलाती धूप में जब लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है वही हमारे रक्तदाता अपना खून दान करके किसी अनजान का जीवन संवारेने में लगे हुए हैं। बहन सुगम जोर के लिए मां श्री यादें जिला शिक्षा समिति टोंक के संयोजक सांवरा प्रजापति लक्ष्मीपुरा जाटान, राजस्थान पुलिस टोंक ने सहायत हॉस्पिटल टोंक पहुंचकर अपने जीवन का 24वां रक्तदान किया, जो प्रशासनिक राजकीय सेवा के साथ-साथ मानव सेवा में भी कोई कमी नहीं रखी, जिसके लिए उनके द्वारा निस्वार्थ भाव से की हुई मानव को संस्थान तहे दिल से धन्यवाद दिया। इसी के साथ ही बनावलाल प्रजापति निवासी मेहंदवास ने भी मानव सेवा के लिए तत्पर रहते हुए रक्त दान देकर मानव सेवा भाव दिखाया।

13 वाहनों के चालान काटे, जुर्माना वसूला

तिजारा, (निर्स)। तिजारा पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 13 दुर्घातिया सहित भारी वाहनों के चालान काटकर जुर्माना वसूला है। थाना अधिकारी हनुमान यादव ने फिरोजपुर रोड पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए 13 दुर्घातिया सहित भारी वाहनों के चालान काटे गए और मौके पर जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने बताया हेल्मेट नाला लगाना, तेज गति से बाइक चलाना, फोन पर बातें करना, बाइक पर क्षमता से अधिक बैटाना, चालक सीट बेल्ट न लगाना, इन लोगों पर कार्रवाई की गई है।

पानी की समस्या को लेकर महिलाएं बर्तन लेकर सड़क पर उतरी

चौरु/उनियारा, (निर्स)। नगर फोर्ट तहसील क्षेत्र ग्राम पंचायत बोसरिया के अंतर्गत आने वाले कई गांवों में इन दिनों जल संकट गहराया हुआ है। पीने के पानी के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था के अभाव में ग्रामीणों को इस गर्मी में इधर से उधर भटकना पड़ रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति के जो संसाधन हैं वह जलस्तर नीचे गिरने की वजह से खनिज संपदा पत्थर चोरी करते हुए एक जेसीबी व तीन ट्रैक्टर ट्राली को जप्त करने के साथ चालक अंकित पुत्र ईश्वर जाति अहीर व महिला पुत्र भागीरथ अहीर गोपीपुरा पुलिस थाना ततारपुर को गिरफ्तार किया है।



उनियारा पुलिस, तहसीलदार व अन्य की समझाइश के बाद ढाई घंटे बाद स्टेट हाइवे जाम खोला गया।

रहे। लगभग एक घंटे बाद प्रशासन को सड़क जाम किए जाने की जानकारी लगी। जानकारी लगते ही नगर फोर्ट थानेदार दिलीप शहल, उनियारा पुलिस, नायब तहसीलदार नगर फोर्ट व

उनियारा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे व बीच सड़क में बैटी महिलाओं से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं। महिलाओं ने ग्राम पंचायत के सरपंच, स्थानीय विधायक, एसडीएम एवं

बीसलपुर परियोजना विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि खेडली ग्राम में बीसलपुर लाइन होने के बावजूद पानी की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने अवैध कनेक्शन का भी

स्टेट हाइवे जाम किया, वाहनों की लम्बी कतार लगी

आरोप लगाया। अवैध कनेक्शन के चलते नलों में पानी नहीं आ रहा है। परन्तु जिम्मेदारों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्हें पानी के लिए भटकना पड़ रहा है।

नगर फोर्ट-उनियारा पुलिस, तहसीलदार अन्य की काफी समझाइश के बाद ढाई घंटे में स्टेट हाइवे जाम खुला। अधिकारियों ने लोगों को पेयजल समस्या का त्वरित निराकरण का आश्वासन दिया तब जाकर ग्रामीण व महिलाओं ने स्टेट हाइवे से जाम हटाय़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए उनियारा पुलिस उपाधीक्षक सलेह मोहम्मद व बीसलपुर विभाग अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों से पानी की समस्या को लेकर विस्तार से चर्चा की वही बिसलपुर अधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि अवैध कनेक्शन हटाकर उन पर कार्यवाही की जाएगी।

विवाह सम्मेलन में 13 जोड़े बनेंगे हमसफर

शाहपुरा, (निर्स)। जय फुले माली विकास जन सेवा समिति शाहपुरा के तत्वावधान में अक्षय तृतीया पर सैनी धर्मशांला त्रिवेणी धाम में आयोजित होने वाले तृतीय आदर्श माली (सैनी) सामूहिक विवाह सम्मेलन में 13 जोड़े एक दूजे का हाथ धामकर हमसफर बनेंगे। राजस्थान में पहली बार सामूहिक विवाह सम्मेलन में हर जोड़े को एक-एक स्कूटी दी जायेगी। जिलाध्यक्ष साधुराम सैनी ने बताया कि आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन त्रिवेणी धाम में स्थित सैनी धर्मशांला में दिनांक 10 मई आखा तीज पर समाज बंधुओं एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित किया जायेगा। सैनी समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति के पदाधिकारियों ने सम्मेलन में आने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोट को भी आमंत्रित किया है। गहलोट को जयपुर उनके आवास पर सामूहिक विवाह सम्मेलन का निमंत्रण कार्ड व पीले चावल भेंट किये गये। सैनी समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन को तैयारियां जोरों चल रही हैं। कार्यक्रमों गांव-गांव में जाकर सैनी समाज के लोगों को सामूहिक विवाह सम्मेलन में पधारने के लिए पीले चावल बांट रहे हैं।

ए.डी.जे. बृजेश शर्मा को स्थानांतरण होने पर वकीलों ने विदाई दी

सांभरझील, (निर्स)। अपर जिला एम सेशन न्यायाधीश बृजेश कुमार शर्मा का स्थानांतरण होने पर अधिभावक संघ बार एसोसिएशन की तरफ से सोमवार को उनको भावभीनी विदाई दी गई साथ ही इस पद पर ज्वाइन करने पर नए एडीजे अरविंद कुमार जांगिड का माल्यार्पण कर व राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा बांधकर गर्मजोशी से अभिनंदन किया।

मुंसिफ मजिस्ट्रेट पद पर ज्वाइन करने पर मैडम जयश्री लामोरिया को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका आदर किया। विदाई समारोह में विचार व्यक्त करते हुए एडीजे शर्मा ने कहा कि यहां के अधिवक्ताओं का बार और बैंच के बीच जो सामंजस्य देखने को मिला है उसे कभी भुलाया ही नहीं जा सकता है। नैसर्गिक न्याय प्राप्त के लिए एवं अति आवश्यक है कि बार और बैंच के बीच सही प्रकार से तारतम्य स्थापित हो तो न्याय प्राप्त का मार्ग सरल और सुगम हो जाता है। जूनियर अधिवक्ताओं का



सांभर बार एसोसिएशन ने न्यायिक अधिकारी को विदाई व नए न्यायिक अधिकारियों का सम्मान किया।

उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने कहा कि सीनियर एडवोकेट से सीखकर आज के युवा वकील तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, यहां भी है एक बेहतर उदाहरण देखने को मिला है। बार एसोसिएशन के

पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में जो भी फैसले किए गए कानून संवत किए गए हैं, वकीलों को इनके मुद्दल व्यवहार से सह्यत कुछ सीखने को मिला है। इस मौके पर बार एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों, सदस्यों व वकील सहायकों की मौजूदगी भी रही। इस मौके पर न्यायिक अधिकारी को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए।

अधिकारी आमजन की समस्याओं को दूर कर राहत पहुंचाएं : एस.डी.एम.

टोंक, (निर्स)। उपखंड अधिकारी टोंक राहुल सैनी ने सोमवार को कार्यालय कक्ष में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा ली। बैठक में एसडीएम ने सभी ब्लॉक स्तरीय



उपखंड अधिकारी टोंक राहुल सैनी ने कार्यालय कक्ष में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा ली।

जिससे आमजन को राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली एवं पानी की समस्या के समाधान के लिए जेबीवीएनएल व पीएचडी तथा आर्यूआईडीपी के अधिकारियों को लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए कहा साथ ही, एसडीएम ने टोंक शहर में

आर्यूआईडीपी के कार्यों की संयुक्त जांच दल द्वारा की गई जांच की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में तहसीलदार टोंक, नगर परिषद के अधिकांसी अधिकारी, विकास अधिकारी टोंक, सीबीडीओ टोंक समेत ब्लाक स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया

कोटपुतली, (निर्स)। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने सोमवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय समग्र में मौजूद अधिकारी-कर्मचारियों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान दो कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये। जिस पर कलेक्टर ने अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के समय-समय पर माॅक ड्रिल कराने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रसूति कक्ष, वार्ड, दवा वितरण केन्द्र व भण्डार का निरीक्षण किया। कार्मिकों को उपस्थिति की स्थिति जानी एवं अस्पताल परिसर में साफ-सफाई रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मरीजों एवं उनके परिजनों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाये।

कोटपुतली, (निर्स)। जिला कलेक्टर अग्रवाल ने सीएमएचओ ऑफिस के निरीक्षण के बाद राजकीय सरदार जनाना अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड में प्रसूताओं से बात कर उन्हें मित्र रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। डॉक्टर व परिजन से बच्चों को दिये जा रहे इलाज का स्टेटस जाना। अस्पताल के सांकेतिक बोर्ड को दुरुस्त करने, अस्पताल के फायर सिस्टम के समय-समय पर माॅक ड्रिल कराने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रसूति कक्ष, वार्ड, दवा वितरण केन्द्र व भण्डार का निरीक्षण किया। कार्मिकों को उपस्थिति की स्थिति जानी एवं अस्पताल परिसर में साफ-सफाई रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मरीजों एवं उनके परिजनों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाये।

चिकित्सक के अभाव में बंद पड़ी सोनोग्राफी मशीन

चाकसू, (निर्स)। चाकसू विधानसभा क्षेत्र के कस्बा स्थित सबसे बड़े उप जिला अस्पताल के मरीजों को जांच कराने निजी लैब का सहारा लेना पड़ रहा है। उपजिला अस्पताल में प्रतिदिन सैकड़ों मरीज सोनोग्राफी कराने पहुंचते हैं लेकिन यहां से उन्हें दूसरे अस्पताल या जांच केंद्र जाना पड़ रहा है, क्योंकि सोनोग्राफी डॉक्टर की कमी से सोनोग्राफी मशीन बंद पड़ी है जिसकी ओर अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों का ध्यान ही नहीं जा रहा है।



डॉक्टर के अभाव में चाकसू उपजिला अस्पताल की सोनोग्राफी मशीन बंद होने से मरीज मजबूर हो भटक रहे हैं।

सोनोग्राफी करवानी पड़ रही है। हालांकि सोनोग्राफी रूम में दो कर्मचारी लगे हुए हैं पर जांच बंद पड़ी है। सोनोग्राफी जांच केंद्र में उद्घाटन से लेकर अभी तक सोनोग्राफी डॉक्टर की नियुक्ति विभाग द्वारा नहीं की गई थी जिससे यहां अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर और रेजिडेंट के भरोसे केवल सप्ताह में तीन दिन गर्भवती महिलाओं की ही सोनोग्राफी शुरू की गई थी। जिसे भी कुछ समय पहले जो कर्मचारी जांच कर रहा था उसकी ड्यूटी दूसरी जगह लगी होने, से सोनोग्राफी डॉक्टर के नहीं होने की कमी बता कर सही जांच नहीं आने का बहाना बनाकर गर्भवती

मरीजों को जांच के लिए निजी लैब का सहारा लेना पड़ रहा है

अधिक है। जबकि अस्पताल में यह व्यवस्था निशुल्क है इससे मरीजों को नुकसान हो रहा है। विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल होने की वजह से आसपास के इलाकों से अधिकांश प्रसव के मामले यहां आते हैं। ऐसे में उनकी गर्भ की स्थिति जानने के लिए सोनोग्राफी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जिस कारण यहां सोनोग्राफी की जांच की सुविधा बंद होना दुःखदायी है। इसके बाद भी अधिकारी व जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे जैसे गर्भवती महिलाओं को राहत मिल रही थी जिसे भी बंद कर दिया गया है। यहाँ लैब में जनप्रतिनिधियों और डॉक्टरों पर कर्मचारियों के खुले आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि कुछ समय पूर्व उपाजिला अस्पताल में क्रमोन्नत हुआ सरकारी अस्पताल सुविधाओं व कमजोर इंतजामात के चलते रोगियों को उपचार के बजाय दर्द दे रहा है। इसे जल्दबाजी में क्रमोन्नत तो कर दिया गया मगर, उप जिला जेसी सुविधाओं की कमी को अभी तक

जिम्मेदार नहीं भर पाए यही वजह है कि रोगी उपचार के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है। ऊपर से मौसमी बीमारियों के तांडव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। अस्पताल प्रबंधक ऋतुराज बाणा ने

बताया कि जिला अस्पताल में सोनोग्राफी डॉक्टर की कमी के कारण यह सुविधा बंद है। चिकित्सा विभाग को यह सोनोग्राफी डॉक्टर की मांग की गई है।

बताया कि जिला अस्पताल में सोनोग्राफी डॉक्टर की कमी के कारण यह सुविधा बंद है। चिकित्सा विभाग को यह सोनोग्राफी डॉक्टर की मांग की गई है।

सार-समाचार

अस्थायी अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई

खादुश्यामजी, (निर्स)। खादुश्यामजी में उपखंड अधिकारी गोविंद सिंह भींचर द्वारा बैठक आयोजित करने के बाद अस्थायी अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई करने के आदेश की पालना में नगरपालिका प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। नगरपालिका के ईओ अरुण शर्मा के निर्देशन में स्वास्थ्य निरीक्षक वीरेंद्र सिंह चंदेलिया की टीम लगातार कस्बे में औचक कार्रवाई कर रही है। नगरपालिका के एसआई चंदेलिया ने बताया कि नगरपालिका प्रशासन द्वारा चार दिन में अस्थायी हाथ ठेलों के खिलाफ 58 चालान बनाकर 33 हजार रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी। इसके साथ ही नगरपालिका द्वारा पॉलीथिन थैली पर कार्रवाई करते हुए 65 किलोग्राम पॉलीथिन जप्त की गई है।

11 परिंडे विभिन्न स्थानों पर लगाये

कोटपुतली, (निर्स)। सामाजिक कार्यकर्ता रतनलाल शर्मा द्वारा पक्षियों के लिए परिंडे लगाने के अभियान के तहत सोमवार को ग्राम नरेश्वा में वीरगंगा रतन कंवर के नेतृत्व में 11 परिंडे बाबा भोमियां व अन्य स्थानों पर लगाये गये। वीरगंगा रतन कंवर ने कहा कि राष्ट्र, समाज व जीवों की सेवा करने से मन प्रसन्न रहता है व जीवन को सुकून से जीने का सबसे सरल तरीका है। प्रत्येक मनुष्य को अपने आसपास बेबुजान जीवों का ध्यान रखना चाहिये। इस दौरान सरपंच संतु सिंह, संजय सिंह तंवर, पूरणमल, रतन लाल सैनी, संजय जोशी, अशोक सिंह, पवन सिंह, रोशन व सोनू सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

सड़क हादसे में तीन घायल

कोटकासिम, (निर्स)। कार की टक्कर लगने से ट्रेक्टर से नीचे उतर रहे परिवार की महिला सहित तीन लोग घायल हो गए। कार की स्प्रीड तेज गति से होने पर कार के परखच्चे उड़ गए। घायलों को उपचार के लिए कोटकासिम अस्पताल पहुंचाया गया जहां हालत गंभीर होने पर रेफर कर दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चौकी गांव निवासी रामचंद्र पुत्र हरिराम ने मामला दर्ज कराया है कि भतीजे की पुत्रवधू कोमल, पुत्र पवन कुमार व पोता विराट तीनों ट्रेक्टर में बैठकर कोटकासिम से चौकी जा रहे थे। ट्रेक्टर से नीचे उतरते समय कार चालक ने लापरवाही से टक्कर मार दी जिससे तीनों घायल हो गईं। वही कार चालक को मौके पर छोड़ कर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पालिका क्षेत्र में नाली निर्माण की मांग

फुलेरा, (निर्स)। कस्बे के श्री रामनगर स्थित सियाराम बाबा की बगीची के पास आमजन के द्वारा प्रशासन से नाली निर्माण की मांग की है। गौरतलब है कि उक्त नाली पिछले 5 महानों से लगातार टूट-टूट कर नाला बन चुकी है। आगे बताया कि यह मुख्य मार्ग होने के कारण इस पर कई वाहन निकलते हैं। इस दौरान यहां पर कई बार बुजुर्ग, स्कूल छात्र छात्राओं की गाडियों दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी हैं। परन्तु इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। जबकि वार्ड प्रतिनिधि भी प्रतिदिन इस रास्ते से होकर निकलते हैं साथ ही इसके लिए आमज व बुजुर्गों द्वारा सम्बंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को अनेक बार अवगत कराने के बावजूद भी प्रशासन के जू तक नहीं रेंगी। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि चुनाव के दौरान वोट की वजह से देश में बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। लेकिन इस नाली (नाले) का आज तक कुछ भी नहीं हुआ। जबकि हाल ही में दो बड़े चुनाव सम्पन्न हुए हैं। ऐसे में जनहित का यह कार्य कब होगा। यह तो स्थानीय जनप्रतिनिधि या अधिकारी ही जानें।

चुनाव संचालन समिति का किया गठन

फुलेरा, (निर्स)। कस्बे के श्री रामनगर स्थित माली सैनी समाज भवन में रविवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट राहुल सैनी के द्वारा चुनाव संचालन समिति गठित करने हेतु एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें आगामी 19 मई को प्रस्तावित अध्यक्ष पद चुनाव के लिए चुनाव संचालन समिति का गठन किया गया। जानकारी देते हुए निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट राहुल सैनी ने बताया कि संस्था के सदस्य बनने के लिए 10 मई तक सांय 7 बजे तक अंतिम अवसर रहेगा। साथ ही आगे यह भी बताया कि 13 मई तक अध्यक्ष पद हेतु नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि रहेगी। इस मौके पर समाज के कई प्रबुद्धजन मौजूद रहे।

नवीन प्रवेश प्रक्रिया शुरू

निवाड़ी, (निर्स)। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नवीन में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुकुंश कुमार गुर्जर ने बताया कि 7 से 12 मई तक सत्र 2024-25 के लिए आवेदन लिए जाएंगे। चर्चित छात्रों की सूची लांटर की के माध्यम से निकालकर 14 मई को जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि कक्षा 1 में 30, कक्षा 2 में 21 व कक्षा 3 में 10, कक्षा 4 में 12, कक्षा 5 में 12, कक्षा 6 में 21 व कक्षा 7 में 27 सीटें रिक्त हैं। इसी प्रकार महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय झिलाय में भी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है।

AU SMALL FINANCE BANK
Registered Office : 19-A Dhuleshwar Garden, Jaipur, Rajasthan, India, 302001.
www.aubank.in

LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS
The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay their outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from AU Small Finance Bank Limited ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles on 13 May 2024 between 11:00 AM - 3:00 PM (Time) at below mentioned branches according to the mode specified therein. In the case of deceased borrowers, all conditions will be applicable to legal heirs. Please note that in the event of failure of the above auction, the Bank reserves its right to conduct another auction without prior intimation.

E-Auction Branch Details (E-auction will be conducted by using Weblink https://gold.samli.in)

BANSWARA - 23660001827226 CHITTORGARH - 23660001833164
23660001926950 23660001930482 JAIPUR - 23660001480467
23660001813203 23660002192362 24660000019523 JAIPUR-TRIVENI
NAGAR - 2366000127307 JHALAWAR - 23660002129583 JDHPUR
ITI CIRCLE - 23660001325261 23660002265405 KOTA - GODHSE WALE
BABA CROSS ROAD - 23660001339964 23660001703340 23660001988402
23660002244655 LAXMANGARH - 23660001343406 23660002107234
NOKHA - 23660002229024 SAGWARA - 23660001329703 23660002259147
23660002350625 UDAIPUR - MADHUBAN BANK STREET - 23660001227785
23660001677767

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form, which is made available before the commencement of auction.

Sd/-
Manager
AU Small Finance Bank Limited

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - के आरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिगटन रोड, चेटपेट, चैम्पई-600031, फोन- +91 44 4564 4000 | फेक्स- +91 44 4564 2022

परिशिष्ट-IV-ए
(नियम 8 (6) व 9 (1) का प्रावधान देखें)
अचल सम्पत्तियों की बिक्री की विधि (बिक्री की सूचना)

वित्तीय आसिद्धि के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति ब्राम्पन्न अर्थात् नियम 2002 के साथ सहपट्टि प्रतिभूति ब्राम्पन्न (परवर्तन) विधि 2002 के नियम 8 (6) के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री करने के लिए ई-निष्पत्ति बिक्री सूचना

एलए द्वारा अनुसंधान को तथा विशेष रूप से कलाम (i) के अनुसार ब्राम्पन्न प्रकृति(ओ) तथा रूप-ब्राम्पणित (ओ) को सुचित किया जाता है कि कलाम (ii) के अनुसार नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों को सुचित ब्राम्पणित के तहत ब्राम्पणित रक्ती गयी है, तथा इन सम्पत्तियों का भौतिक अस्तित्व पूर्व में केवल फर्स्ट बैंक फर्स्ट बैंक लिमिटेड तथा केवल फर्स्ट बैंक लिमिटेड, अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को चले आईडीएफसी बैंक लि. के नाम से जाना जाय, के अधीन अतिक्रमण से ले लिया है। इन सम्पत्तियों की बिक्री 24.05.2024 को "जहाँ है जैसी है" "जो कुछ है वह है" तथा "जो कुछ है वहाँ है" के आधार पर उक्त नीचे वर्णित है, कलाम (i) के अनुसार ब्राम्पन्न प्रकृति (ओ) और सह-ब्राम्पणित (ओ) के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड) को ब्राम्पणित राशि की बसूली के लिए की असेगी।

बिक्री के विस्तृत नियमों के शर्तों के लिए क्रमशः आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वेब साइट पर उल्लेख करारये गये लिंक, अर्थात् www.idfcfirstbank.com

पिनकोड का विवरण

क्र. सं.	(i) हिमांशु नोटिस राशि	(ii) नाम ब्राम्पणित (ओ) एवं सहब्राम्पणित (ओ)	(iii) सम्पत्ति का पता	(iv) आरंभित मूल्य राशि	(v) ईएमवी राशि	(vi) निष्पत्ति की तिथि व समय	(vii) ईएमवी निष्पत्ति की तिथि व समय	(viii) सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि	(ix) प्राधिकृत अधिकारी का नाम व मोबाइल नम्बर
1	रुपये 1100236.73/- हिमांशु नोटिस दिनांक 20 अक्टूबर 2021	अजीत शर्मा एवं सुमन शर्मा	फ्लैट/प्लानेट नं. एक-303 केवलक 570 वर्गज, फर्स्ट फ्लोरलाट नं. जी-8 दर, मंगलम सिटी विलास, ग्राम-हादंगी, कालाहा रोड, जयपुर का पुरा व प्रत्येक भाग, प्लानेट नं. जी-8 को सीमाएं हैं पूर्व में-10 फीट का रोड, पश्चिम में-प्लाट नं. जी-11, उत्तर में-प्लाट नं. जी-7, दक्षिण में-प्लाट नं. जी-9	रुपये 9,24000.00/-	रुपये 92400.00/-	24.05.2024 प्रातः 11.00 से दोपहर में 1.00 तक	23.05.2024 प्रातः 11.00 से सायं 5.00 तक	17.05.2024 प्रातः 11.00 से दोपहर 4.00 तक	नाम-सूर्यदीप राठी, मोबाइल नम्बर- 9687772255 नाम-अंचल शर्मा, मोबाइल नम्बर- 7737204242

अस्वीकरण- कृपया ध्यान दें कि यह नोटिस केवल अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए जारी किया गया है तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को चल सम्पत्तियों को बेचने का अधिकार नहीं है, यदि कोई अचल सम्पत्ति पर मौजूद हो।
दिनांक- 07.05.2024
स्थान- जोधपुर

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

संक्षिप्त

देवकीनन्दन शास्त्री का धर्मसभा में चयन

श्रीमाधोपुर, (निर्स)। थोई के ग्राम रामपुरा निवासी पंडित देवकीनन्दन शास्त्री का धर्मसभा में चयन हुआ है। कार्यक्रम संयोजक अभिषेक जोशी ने बताया कि विक्रम संम्वत् 2082 के राष्ट्रीय व्रत पर्वों पर मतेक्यता हेतु दो दिवसीय राष्ट्रीय ज्योतिष शोध संगोष्ठी धर्मसभा का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 25 व 26 मई को सेठ श्री सूरजमल तापडिया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ नागौर में आयोजित किया जायेगा। ज्योतिष शास्त्र में विशेष कार्य करने पर शास्त्री का चयन किया गया है। शास्त्री को पहले भी युवा ज्योतिष रत्न व ज्योतिष गोवर्धन सम्मान अवार्ड से नवाजा जा चुका है।



देवकीनन्दन हेतु दो दिवसीय राष्ट्रीय ज्योतिष शोध संगोष्ठी धर्मसभा का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 25 व 26 मई को सेठ श्री सूरजमल तापडिया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ नागौर में आयोजित किया जायेगा। ज्योतिष शास्त्र में विशेष कार्य करने पर शास्त्री का चयन किया गया है। शास्त्री को पहले भी युवा ज्योतिष रत्न व ज्योतिष गोवर्धन सम्मान अवार्ड से नवाजा जा चुका है।

अवियांश मीणा ने जीता गोल्ड मेडल

टोंक, (निर्स)। सोबर में आयोजित राज्य स्तरीय किक बाक्सिंग



प्रतियोगिता में टोंक की टाइटन मार्शल आर्ट अकेडमी टोंक के अवियांश मीणा ने गोल्ड मेडल जीता। अवियांश ने टोंक जिले व अपने गुरुजनों, माता पिता का नाम रोशन किया है। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लाने से अलग अवियांश राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है, जो 21 से 26 जून तक महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। जानकारी के अनुसार अवियांश के पिता राजेश कुमार मीणा थाना पुरानी टोंक पुलिस में कार्यरत हैं।

किशन अग्रवाल अध्यक्ष नियुक्त

कोटपुतली, (निर्स)। दी फुटबल एण्ड जनरल एक्सिपेशन के चुनाव



आयोजित कर नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यकारिणी में किशन अग्रवाल को अध्यक्ष, चेतन कुमार सैनी को उपाध्यक्ष, रजत जिल्लत को कोषाध्यक्ष, सतीश जिलदल को मंत्री, रामकिशन अग्रवाल को मंत्री, तुलसीराम टेलर को संरक्षक नियुक्त किया गया। सदस्यों में सोहन लाल सैनी, बंटी भाई, रामकुमार सैनी, राजकुमार टेलर, कपिल सैनी को शामिल किया गया है। कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से अमावस्या को प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया। फोटो: कोटपुतली। किशन अग्रवाल।

एक महीने तक रहेगा वैकल्पिक शटडाउन

मालपुरा, (निर्स)। मालपुरा केकडी रोड 132 केवी जीएसएस पर पुराने ट्रांसफार्मर को बदल अधिक क्षमता वाला नया पावर ट्रांसफार्मर रखे जाने सहित आवश्यक रखरखाव कार्य के चलते 7 मई से 30 मई तक निगम द्वारा वैकल्पिक शटडाउन लिया जायेगा। निगम अधिकारियों ने बताया कि उक्त समयावधि में क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों की वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था 132 केवी जीएसएस टोडारयसिंह से की जायेगी। निगम अधिकारियों ने आमजन से अपील करते हुये उक्त समयावधि में होने वाली विद्युत परेशानी को लेकर निगम को सहयोग करने की अपील की है।

अज्ञात कारणों से जंगल में लगी आग

निवाई, (निर्स)। निकटवर्ती गांव सजिया के जंगल में सोमवार की दोपहर अज्ञात कारणों से आग लग गई। जिससे जंगल में लगे पौधे व पेड़ जलकर राख हो गए। दमकल के फायरमैन देवनायण गुर्जर ने बताया कि गांव सजिया के जंगल में अज्ञात कारणों से आग लग गई। जिसकी सूचना ग्रामीणों ने नगरपालिका में दी। सूचना पर नगरपालिका के फायरमैन गुर्जर सहित नमोनारायण मीणा, महेश चौधरी व प्रहलाद यादव मौके पर पहुंचकर दमकल की सहायता से आग पर कब्जा पाया। उन्होंने बताया कि सजिया के जंगल में करीब 20 बीघा भूमि पर आग लगने लायों रूपए के पेड़ जलकर राख हो गए।

सूने मकान का ताला तोड़ लाखों के जेवर व नगदी चोरी की वारदात

मालपुरा, (निर्स)। नगरपालिका शहरी क्षेत्र के दूद रोड स्थित न्यू बस्त विहार कॉलोनी में सूने मकान के ताले तोड़ 7 तोला सोने के आभूषण व 1 लाख रूपये की नगदी चुरा ले भागे चोर।

मिली जानकारी में सामने आया कि पीडित मकान मालिक राजेन्द्र पारीक जो कि अपनी मां के साथ पारिवारिक कार्य से बाहर गया हुआ था। सूने मकान के ताले लगे देख शांति चोरों ने आसपास की रैकी कर मौका पाकर सूने मकान के ताले तोड़ अलमारी व अन्य जगह रखे तकरीबन 7 तोला सोने के आभूषण व 1 लाख रूपये की नगदी चुरा ले गये। सोमवार की सवेरे जाग होने पर पीडियों ने मकान के ताले टूटे देख चोरी की सूचना दी। पीडित राजेन्द्र पारीक जो कि स्वयं एक निजी विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत रहकर अपने परिवार को आजीविका चला रहा था। हाल ही में न्यू बस्त विहार कॉलोनी में मकान बनाकर परिवार के साथ रहने लगा था। रविवार की रात को हुई चोरी की बड़ी वारदात की थाना पुलिस को भनक तक नहीं लग पाई। जबकि रिपोर्ट



कृषि मंडी के व्यापारियों ने मंडी सचिव को ज्ञापन सौंप व्यापार बंद रख आंदोलन करने की चेतावनी दी।

में 24 घंटे शहर में पुलिस का गश्ती दल व वाहन गश्त पर रहता है। ऐसे में एक के बाद एक हो रही चोरियों के बावजूद पुलिस गश्त व्यवस्था में सुधार नहीं होना और ना ही शहर की कानून व्यवस्था में कोई ठोस परिवर्तन

किसी आश्चर्य से कम नहीं। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही चोरी की वारदातों के बावजूद पुलिस गश्त व्यवस्था में सुधार नहीं होना और ना ही शहर की कानून व्यवस्था में कोई ठोस परिवर्तन

नहीं होना गंभीर विषय है। पुलिस की लापरवाही को लेकर आमजन में गहरा आक्रोश व्याप्त है। मालपुरा कृषि मंडी में भी अज्ञात चोरो द्वारा मंडी परिसर से कृषि जिन्सो से भर भरे बगीचो हो जाने से

नालियों के अवरुद्ध होने से गली में बह रहा है गंदा पानी

पावटा, (निर्स)। कस्बे में राजस्थान स्कूल पीछे वार्ड नं. 12 में नालियों के अवरुद्ध होने से गंदा पानी गली में बह रहा है। इसके चलते गली कीचड़ व गंदगी से अटी पड़ी है और स्थानीय निवासियों का घर से मजिल की ओर आवागमन दुश्वारा हो गया है।

कालोनी निवासी श्याम सिंह, सहवाग, कृष्ण कुमार, गोलू व ताराचंद ने बताया कि गली की नालियों जिस बड़ी नाली से मिलती है, उसके मुह को अतिक्रमण कर्मियों ने बंद किया हुआ है। मुख्य नाली भी गंदगी के कारण पूरी तरह अवरुद्ध है। इस कारण नालियों का पानी गली में भरा रहता है। यही गंदा पानी भर रहने से बीमारियां फैलने का खतरा

मंडरा रहा है। स्कूली बच्चे भी गंदे पानी में गिरकर चोटिल हो जाते हैं। लोगों ने बताया कि समस्या को लेकर नगरपालिका अधिकारियों से कई बार पूर्व में शिकायत की जा चुकी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गमी के मौसम में अवरुद्ध नालियों में जमा कचरा व गंदगी के कारण मौसमी बीमारियों के फैलने का अंदेश बना हुआ है। नगरपालिका प्रशासन की लापरवाही के कारण आमजन में रोष व्याप्त है। जिसे देखते हुए आगामी दिनों में समस्या को समाधान नहीं होने पर वार्डवासियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जायेगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि नाले पर हुआ अतिक्रमण हटवाकर सफाई करवा दी जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा।

हरियाणा में भाजपा सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए : डॉ. पूनिया

जयपुर, (निर्स)। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं हरियाणा के चुनाव प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया ने हरियाणा में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार की कमान संभाली।

इस दौरान डॉ. पूनिया फरीदाबाद, महेंद्रगढ़-भिवानी, सोनीपत, सिरसा, रोहतक और हिसार में नामांकन सभाओं सहित विभिन्न जनसंपर्क कार्यक्रमों में शामिल हुए। वहीं आज फरीदाबाद में हरियाणा के भाजपा पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रमों की बैठक कर आगामी रैलियों की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की। मंगलवार को डॉ.

हरियाणा के लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया ने ली मैराथन बैठकें

सतीश पूनिया दिल्ली विश्वविद्यालय की शहीद भगत सिंह कॉलेज के वार्डकोलेज में शामिल होकर फरीदाबाद में भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि हरियाणा में भाजपा का कमल सभी

सीटों पर प्रचंड बहुमत से खिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने तर्क की नए आयाम स्थापित किए हैं।

कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नाथ गेंडा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान रोहतक के भाजपा कार्यालय में हरियाणा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में संगठन महामंत्री फणीन्द्र नाथ शर्मा एवं हरियाणा चुनाव प्रभारी सतीश पूनिया, चुनाव समिति के संयोजक सुभाष बराला ने कार्यकर्ताओं से चर्चा की।

कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरण और ई-फाइल सिस्टम की समीक्षा की

कोटपुतली, (निर्स)। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर ने विभिन्न विभागों की कार्य योजना, संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरण और ई-फाइल सिस्टम की समीक्षा की।

उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अब किसी भी हाल में ऑफलाइन फाइलों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक फाइल को ऑनलाइन ई-फाइल सिस्टम के माध्यम से ही भेजा जाये। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी पूर्णतः ई-फाइल का ही इस्तेमाल करें। जिला कलेक्टर ने सभी योजनाओं की प्रगति की निर्यात तौर पर माॉनटरिंग करने, अवैध खनन की गतिविधियों को रोकथाम के लिए निमित्त कार्याई करने, विद्युत ट्रांसफार्मर समय सीमा में बदलने, अवैध विद्युत कनेक्शन पर कारवाई करने के निर्देश दिए। अनुरूप रसोईयों के संचालन की स्थिति तथा परिसीमन के बाद नगर परिषद क्षेत्र में आई

15 ग्राम पंचायतों में पेयजल की समस्याओं को दुरुस्त करने के लिए पीएच डी तथा नगर परिषद को आपसी सामंजस्य से काम करने तथा उक्त ग्राम पंचायत को पेयजल संबंधी समस्याओं से रक्षा प्रदान करने के निर्देश दिये। उन्होंने जल जीवन मिशन योजना की प्रगति की समीक्षा की तथा प्रगति कम होने पर नाराजगी जाहिर की और पीएचडी अधिकारियों को निर्देशित किया कि यह राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है, गमी के मौसम को देखते हुए इस योजना का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अतः इस योजना की प्रगति पर विशेष बल देते हुए ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध करवाना विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी है। उन्होंने मेडिकल विभाग से अंतिम माह की इंडोरा तथा आउटडोर पेशेंट की प्रगति रिपोर्ट, संचालित चिकित्सा संस्थानों की निरीक्षण रिपोर्ट, संस्थागत प्रसवों की रिपोर्ट, मेरा वार्ड मेरा अभियान के बारे में जानकारी

ली तथा आरएमएसआर रिपोर्ट की पालनाओं के संबंध में प्रगति रिपोर्ट के बारे में अवगत करवाने तथा गमी के मौसम को देखते हुए आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति एवं लू व मौसमी बीमारी से बचाव एवं रोकथाम के सम्बन्ध में जरूरी दिशा निर्देश दिये।

उन्होंने राजस्थान रोडवेज की चीफ मैनेजर से कोटपुतली में बस स्टैंड नहीं होने के कारण यात्रियों को आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली तथा इस संबंध में यथाशीघ्र वस्तु स्थिति रिपोर्ट कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए कहा। इस दौरान एडिओप योगेश कुमार डागुर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट, सीएमएचओ डॉ. आशीष सिंह शेखावत, जेवीवीएएल के अधिशाषी अभियंता मनोज गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी रामसिंह यादव, राजस्थान रोडवेज की चीफ मैनेजर मंजू चौधरी, जिला जनसम्पर्क अधिकारी नितिन कुमार आदि मौजूद रहे।

विधायक आवासों में सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक प्रबंध : देवनाजी

जयपुर, (निर्स)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनाजी की अध्यक्षता में सोमवार को यहां विधानसभा में गृह समिति की बैठक हुई। अध्यक्ष देवनाजी ने कहा कि विधायक आवासों में सुरक्षा और बेहत सुविधाओं के व्यापक प्रबंध किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवासों के संबंध में दिशा-निर्देशों का निर्धारण किया गया है। परिसर में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

अध्यक्ष देवनाजी ने कहा कि परिसर में एसबीआई बैंक का एटीएम, जयपुर डेयरी द्वारा सरस पालर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा एलोपैथी चिकित्सालय और सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा डिपार्टमेंटल स्टोर का संचालन शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगा। उन्होंने कहा कि विधायकगण और उनके परिवारों के लिए सुविधाओं के मद्देनजर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं शीघ्र किये जाने के निर्णय बैठक में लिये गये हैं। देवनाजी ने बताया कि विधायक व उनके परिवारों के लिए विधायक

आवास परिसर में जिम और तरणताल का भी संचालन किया जा रहा है। इनमें महिलाओं के लिए अलग से समय तय किया गया है। विधायक के अतिथियों के लिए अतिथिगृह का संचालन होगा। देवनाजी ने बताया कि विधायक आवासों में से 137 आवासों का आवंटन विधायकों को कर दिया गया है। इसमें से 112 विधायकों ने आवंटित आवास का कब्जा ले लिया है। अभी 25 विधायक शीघ्र ही आवंटित आवास का कब्जा ले लेंगे। देवनाजी ने बताया कि आवासों के संबंध में गृह समिति ने दिशा-निर्देश तय किये हैं।

गृह समिति की बैठक में सभापतिपुष्पेन्द्र, सदस्यगणकेसारा म चौधरी, फूलसिंह मीणा, संदीप शर्मा, शोभा चौहान, जितेन्द्र कुमार गोंटवाल, अनिल कुमार शर्मा, ब्रजेंद्र सिंह ओला, राजकुमार रोट, चन्द्रभान सिंह चौहान सहित विधानसभा के प्रमुख सचिवमहावीर प्रसाद शर्मा व उप सचिववृध्वीर सिंह भी मौजूद थे।

बैठक में व्यापारियों ने पालिका पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए

किशनगढ़बास, (निर्स)। एसडीएम मूलचंद लूणिया की अध्यक्षता में शहर में हो रहे स्थाई अस्थाई अतिक्रमणों को हटाने के लिए उपखंड कार्यालय में बैठक रखी गई। इस बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सतीश सिंघल ईओ जगदीश खीचड़ थानाधिकारी जितेंद्र शेखावत व्यापार महासंघ अध्यक्ष परमानंद लखवाणी अभिभाषक संघ पूर्व अध्यक्ष अमित गौड़ सहित व्यापारी व नगर पालिका कर्मचारी मौजूद रहे।

करीब डेढ़ घंटे चली बैठक में एसडीएम ने व्यापारियों की बाजार में पानी भरने की समस्या को देखते हुए नगर पालिका को पानी निकासी की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए तथा दुकानों के आगे मुख्य सड़क पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर व्हाइट लाइन अंकित करारक व्यापारियों को पाबंद करने के लिए कहा। लाइन अंकित किए जाने के बाद अतिक्रमण पाए जाने पर पुलिस की मदद से जप्त करने के निर्देश दिए। ईओ जगदीश खीचड़ ने प्रस्तावित जगह पर बस स्टैंड शिफ्ट को लेकर कहा कि आचार संहिता के हटने व बजट आने पर जल्द ही शिफ्ट करा दिया जाएगा। एसडीएम मूलचंद लूणिया की अध्यक्षता में करीब डेढ़ घंटे चली बैठक में व्यापारियों ने नगर पालिका के



किशनगढ़बास उपखंड कार्यालय में नगर पालिका व व्यापारियों की अतिक्रमण को लेकर एसडीएम मूलचंद लूणिया ने बैठक ली।

अभियान की पोल को अधिकारी के सामने खोला और नगर पालिका प्रशासन पर जमकर आरोप लगाए और अधिकारी बैठकर सुने रहे। यहां तक कि नगर पालिका अधिकारियों से व्यापारियों के आरोपों का जवाब तक नहीं तक दिया गया। पालिका प्रशासन बिना किसी भेदभाव के ईमानदारी से अतिक्रमण हटाए तो व्यापारी नगर पालिका के साथ खड़े है।

व्यापारियों का आरोप था नगर पालिका अतिक्रमण के लिए स्वयं जिम्मेदार है क्योंकि नगर पालिका ने ही गंज रोड पर नगर पालिका का बजट खर्च कर दुकानदारों को सड़क से डेढ़ फुट ऊंची नाली बनाकर दुकान से आगे बचवृत्ते बनाने के लिए जगह दी हुई है।

अभिभाषक संघ पूर्व अध्यक्ष अमित गौड़ ने कहा गंज रोड पर नाली के ऊपर से हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर पालिका की ओर से पूर्व में नोटिस की कार्रवाई की गई। शहर वासियों की ओर से पीसीपीएल में मामला दर्ज है। इसके बाद भी नगर पालिका अतिक्रमण नहीं हटा सकी है। स्थाई अस्थाई अतिक्रमण के रहते गंज रोड की पानी की निकासी अवरुद्ध हो रही है। लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। व्यापारियों ने नगर पालिका की ओर से शुरू किए गए अभियान की पोल खोलने से कहा अभियान के नाम पर नगर पालिका का केवल व्यापारियों को परेशान करना है। व्यापारी पार्षद प्रतिनिधि मनोज मित्तल ने आरोप

पानी निकासी के नाम पर प्राकृतिक जलाशयों की सफाई पर खर्च किये 45 लाख, हल कुछ नहीं

लगाया की नगर पालिका की ओर से शहर में लाखों रूपए खर्च कर हाई मास्क व स्ट्रीट लाइट लगवाई हुई है लेकिन खराब रहने के कारण सड़कों पर अंधेरा रहता है अगर जांच कराई जाए तो नगर पालिका की पोल खराब सामने आ जायेगी। तिजारा रोड पर नगर पालिका ने मानसून की देरते हुए नाला सफाई का कार्य शुरू किया लेकिन अनाज मंडी से आगे बढ़ते ही रोक दिया गया। जब पानी आगे निकलेगा ही नहीं तो सफाई का औचित्य क्या रह जाता है। बैठक में व्यापार महासंघ अध्यक्ष सहित किराना मर्चेट अध्यक्ष मदनलाल अग्रवाल लघु उद्योग संघ हरमेश खुराना मुखेश सोनी ताराचंद बत्रा प्रभु दयाल संतोष गोयल कमलेश पमनानी जितेंद्र सोनी पहलाद गुप्ता पवन सिंघल प्रवीण अग्रवाल प्रेम भगत रमेश चंद्र अग्रवाल नंदलाल हरनानी राजेंद्र मित्तल मनोज मित्तल हिमांशु गुप्ता अनिल खुराना एड. अनिल गोयल ठेली खोखा नूयियन के विक्रम सिंह सहित व्यापारी मौजूद रहे।

सार-समाचार

प्रतिभावानों का सम्मान किया



निवाई, (निर्स)। उच्च प्राथमिक सरस्वती विद्या मंदिर में प्रतिभावानों का सम्मान किया गया। मीडिया व कार्यक्रम प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि विद्या मंदिर में प्रतिभावानों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह की अध्यक्षता प्रमुख समाजसेवी घनश्याम पाराशर ने की। समाजसेवी घनश्याम पाराशर ने विद्यालय के मैना-बहिने को प्रतिभा सम्मान प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में कार्यरत आचार्य-आचार्याओं व कर्मचारियों को विद्यालय के प्रति उनकी लगन व मेहनत को देखते हुए पुरस्कार व शाल ओटाकर सम्मान प्रदान किया। अध्यक्षता कर रहे घनश्याम पाराशर ने कहा कि विद्या मंदिर में संस्कार युक्त प्रदान कर आने वाले पीढ़ी को संस्कारवान भविष्य बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि बड़े गर्व की बात है कि विद्या मंदिर कार्यरत कर्मचारियों का भी सम्मान किया। प्रतिभा सभी में होती है पर उसको निखराना भी एक कला है। राजेश शर्मा ने बताया कि प्राची, निशांत और गोविंद अचल रहे। इस अवसर पर राजेश पारीक, हरिसिंह, ममता जैन, ममता वैष्णव, मनीषा अग्रवाल, अंशिका पारीक, मोनिका इसरानी, मह्लाद नायक, अंतिमा जैन, पुष्पा करनानी व बीना देवी सहित कई अभिभावक मौजूद थे।

लीकेज के चलते व्यर्थ बह रहा है पानी

फुलेरा, (निर्स)। नगर पालिका क्षेत्र में पिछले कई दिनों से जगह-जगह पर पेयजल सप्लाई लाइन के लीकेज होने से पानी सड़क पर व्यर्थ ही बह रहा है। एक तरफ जल अभियंत्रिक विभाग ने पानी की किल्लत के चलते क्षेत्र में एक दिन के अन्तराल में पानी देने की व्यवस्था की हुई है तो दूसरी ओर अधिकारियों की लापरवाही के चलते पानी व्यर्थ बह रहा है। ऐसे में उपभोक्ता पीने के पानी के लिए काफी हद तक परेशान हो रहा है। इसके साथ ही क्षेत्र में पिछले दिनों से भीषण गर्मी का प्रकोप भी जारी हो गया है। ऐसे में पानी की किल्लत तो और भी ज्यादा होने के आसार बन रहे हैं। गौरतलब है कि क्षेत्र के पुराना फुलेरा स्थित सिनेमा हॉल के पास, नगर पालिका के पास रेवेवे ऑवरब्रिज के समीप, पांच बत्ती चौहान के पास सहित अन्य कई कॉलोनीयों में पेयजल सप्लाई लाइन लीकेज होने से हजारों लीटर पेयजल व्यर्थ ही बह रहा है। वहीं लोगों का यहां तक कहना है कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण लाइनों में फ्लोराइड जमा होने के कारण पानी का प्रेशर कम हो गया है। इसी क्रम में समाजसेवी प्रेम सिंह नरुका ने बताया कि पेयजल लाइन में फ्लोराइड जमा होने के कारण पानी प्रत्येक घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके चलते इस भीषण गर्मी में लोग महंगे भावों में पानी के टैंकर डलवाने को मजबूर हो रहे हैं।

विप्र समाज की महिलाएं लेगी भाग

श्रीमाधोपुर, (निर्स)। विप्र समाज श्रीमाधोपुर द्वारा आयोजित भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के तहत तीन दिवसीय कार्यक्रमों में महिलाएं बड़े-चढकर भाग लेंगी। इस संबंध में शीला चूलेट एवं ममता महर्षि ने बताया कि सोमवार को परशुराम सभागार में महिलाओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें मेहदी प्रतियोगिता, सुंदरकांड पाठ तथा तीन साल से आठ साल तक के बच्चों की में हू परशुराम वेशभूषा प्रतियोगिता के आयोजन में सक्रिय सहभागिता का संकल्प व्यक्त किया गया। आरती पारीक ने बताया कि दस मई को भगवान परशुराम की शोभायात्रा में निर्धारित ड्रेस कोड के तहत महिलाएं लाल रंग की साड़ी तथा बालिकाएं लाल अथवा सफेद रंग के सलवार सूट में रहेंगी। बैठक में अंजू शर्मा, मंजू बोहरा, दीपिका शर्मा, स्वदेश महर्षि, सुमन शर्मा, शोभना शर्मा, आयुषी शर्मा, सलोनी शर्मा, अंकिता बोहरा, शारदा चोटीया, शशि शर्मा, लक्षिता शर्मा, चेष्टा शर्मा आदि उपस्थित थीं।

सड़क हादसे में दो घायल

नारायणपुर, (निर्स)। कस्बे में सोमवार को तेज रफतार से दौड़ रही बोलरो के बाइक सवार दो पुरुष भाईयों को जोरदार टक्कर मार दी जिससे बाइक सवार दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षियों ने बताया कि दोपहर करीब 1 बजे तेज रफतार से दौड़ रही बोलरो ने अनियंत्रित होकर नारायणपुर सरकारी अस्पताल के सामने बाइक पर सवार दो पुरुष भाईयों को जोरदार टक्कर मार दी। बोलरो से टक्कर लगने के बाद आसपास खड़े लोग दौड़ कर आगे और एम्बुलेंस के तब तक सवारों को अस्पताल ले आया। दोनों भाईयों को सलवार सूट में पहनें पुरुषों और महाराज को बाइक छोटा भाई सविनय को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया उसके बाद दोनों भाईयों की हालात गंभीर हो गए पर डॉ. विक्रम गुर्जर ने हाई सेंटर के लिए रफ्तार कर दिया। प्रत्यक्षियों ने बताया कि टक्कर मारने के बाद बोलरो चलकर को लोगों ने पकड़ने के प्रयास किया लेकिन बोलरो चालक मौके से फरार हो गया। वहीं घायल युवकों के परिवारों ने बताया कि दोनों भाई रावतों की ढाणी ज्ञानपुर से बाइक पर सवार होकर नारायणपुर स्थित बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में रूपये निकलवाने के आठ थे। पुलिस ने बताया कि घायल युवकों के परिवारों की तरफ अभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है।

सेन जयंती पर शोभायात्रा निकाली

श्रीमाधोपुर, (निर्स)। कस्बे में संत शिरोमणि सेन महाराज की 724वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। जयंती के अवसर पर श्री सेन समाज श्रीमाधोपुर सेन समाज एवं धर्मार्थ संस्थान कचियागढ़ से शोभायात्रा निकाली गई जो मुख्य बाजारों से पनरौं पर थिरके कदमों और महाराज की जय घोष के साथ वापस सेन समाज कचियागढ़ पहुंची। सेन समाज के मालीराम बिलखीवाल ने बताया कि शोभायात्रा कचियागढ़ सेन समाज एवं धर्मार्थ संस्थान से शुरू होकर पंजाबी मंदिर, सुरानी बाजार, चौपड बाजार, रिस बाजार, अस्पताल चौराहा से खटोडा बाजार होती हुई वापस कचियागढ़ सेन समाज पहुंची। शोभायात्रा में स्थानीय सेन समाज की महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे शोभायात्रा में शामिल थे। केदार चांगिल ने बताया कि शोभायात्रा में श्री सेन जी महाराज की विशेष झांकी सजाई गई वह विशेष श्रंगार कर जीवंत झांकियां घोड़ी व बैडबाजों के साथ सेन जी महाराज के साथ नाचयणी माता की झांकियां शामिल रही। शोभा यात्रा में समाज की कई महिलाएं पुरुष बच्चे आदि मौजूद थे। बताया गया कि शोभायात्रा समापन के बाद पंगत परसदी का भी आयोजन किया गया।

पार्षदों ने चरमराई सफाई व्यवस्था पर पैदल मार्च निकाला

मालपुरा, (निर्स)। नगरपालिका शहरी क्षेत्र में चरमराई सफाई व्यवस्था में सुधार को लेकर पालिका ईओ व पार्षदों के बीच हुई जाता व आश्वासन के बावजूद सफाई व्यवस्था नहीं सुधरने व शहर के हालात बदतर होने को लेकर सोमवार को पार्षदों ने पालिका कार्यालय से एसडीएम कोर्ट तक पैदल मार्च निकाल एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पार्षद पति व पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश कुमार विजय ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व पालिका कार्यालय में पार्षदों व ईओ के बीच हुई जातों के बाद ईओ ने दो दिन में शहर की सफाई व्यवस्था सुचारु करने तथा सफाई कर्मचारियों को बकाया भुगतान देने का वादा कर आश्वासन दिये जाने के बावजूद ना तो कर्मचारियों को तनख्वा दी गई और ना ही अलग से शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर कोई कदम नहीं उठाने पर कड़ी नाराजगी जताते हुये पालिका कार्यालय में बैठक के पश्चात पार्षदों ने पैदल मार्च निकाला है। शहर की सड़कों पर लगे गंदगी के ढेर तो बस स्टैण्ड व मुख्य बाजार के विगडे हालात के लिये कौन जिम्मेदार है। इस दौरान पार्षद सुधिर सिंह, रमेश पारीक, महेंद्र गोंवरिया, पवन कुमार मदनवावरा, अब्दुल मजीद, शैलीजीयम शर्मा, पुरुषोत्तम सैनी, अतिक, राकेश सैनी आदि ने सौंपे ज्ञापन में बताया कि व्यर्थ तीन दिवस में शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तथा सफाईकर्मियों का बकाया भुगतान नहीं होने पर पार्षदों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। जिस पर एसडीएम ने कार्यवाहक ईओ व तहसीलदार से उक्त मामले को लेकर चर्चा के बाद पार्षदों को जल्द व्यवस्थाओं में सुधार का विश्वास दिलाया। केन्द्र से लेकर राज्य सरकार व नगरपालिका तक भाजपा की कडी से कडी जुड़ने व उनके बोर्ड होने के बावजूद भाजपा पार्षदों द्वारा सड़को पर उतर कर ज्ञापन देना भाजपा की पालिका अध्यक्ष के विरोध में खुलकर सामने आना राजनैतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राजस्थान से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित युवाओं से मुलाकात की और उन्हें उनकी कामयाबी के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने चयनित युवाओं का साफा पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि, इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान से छात्र प्रशासनिक सेवा में चयनित हुये हैं, यह पूरे प्रदेश के लिए बेहद गर्व का विषय है।

मु.मंत्री भजनलाल यू.पी.एस.सी. में चयनित युवाओं से मिले

मु.मंत्री भजनलाल ने युवाओं का साफा पहनाकर व शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया

जयपुर, 6 मई (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा-2023 में राजस्थान से चयनित युवाओं से मिले तथा उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने युवाओं को साफा पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, यह बहुत गौरव का विषय है कि, देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में राजस्थान से इतनी बड़ी संख्या में युवा चयनित हुए हैं। आपके माता-पिता के आशीर्वाद तथा कड़ी मेहनत एवं लगन से यह संभव हो पाया है। उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि, 21 वीं सदी भारत की है। वर्तमान में

मुख्यमंत्री ने कहा, सिविल सेवा में चयनित युवा देश के कर्णधार और प्रहरी हैं, उन्हें समाज को सही दिशा देकर देश व प्रदेश को आगे बढ़ाना है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत, पुलिस महानिदेशक यू.आर. साहू सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस सपने को साकार होता देख रहे हैं तथा युवाओं के योगदान से दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ा है।

शर्मा ने कहा कि, "सिविल सेवा परीक्षा में चयनित युवा देश के कर्णधार तथा प्रहरी हैं, उन्हें समाज को सही दिशा देते हुए देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करना है। अभाव में आए प्रत्येक व्यक्ति की बात संवेदनशीलता से सुनकर उनके

काम को पूरा करना है।" उन्होंने चयनित युवाओं से कहा कि, किसी भी जगह नियुक्ति हो को पूरी ऊर्जा, ईमानदारी एवं समर्पण भाव से काम करें क्योंकि, आने वाला समय युवाओं का है।

आपको अपने श्रेष्ठ विचारों तथा अनुभवों से मोदी के, 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के विजन को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

उन्होंने युवाओं से कहा कि, इस परीक्षा में जिन युवाओं का उम्मीद अनुसार परिणाम नहीं आया है, उन्हें निराशा ना होकर पूरे समर्पण भाव से पुनः कोशिश करनी चाहिए।

कार्यक्रम में, चयनित युवाओं ने शिक्षा प्रणाली में सुधार, महिला सशक्तिकरण, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा, स्वच्छता सर्वेक्षण में राज्य की स्थिति सुधारने सहित विभिन्न विषयों पर अपने विचार भी साझा किए। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री के साथ चयनित युवाओं का सामूहिक फोटो सेशन भी हुआ। इस अवसर पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत, पुलिस महानिदेशक यू.आर. साहू सहित मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं यू.पी.एस.सी.-2023 में राजस्थान से चयनित युवा मौजूद थे।

पूर्व मु.मंत्रियों को रायबरेली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अभी भी उनका विशेष स्थान है। सूत्रों का कहना है, दिल्ली में यह खबरें पहुँच गई हैं कि, पुत्र वैभव गहलोट के चुनाव के लिए अशोक गहलोट का सौ करोड़ का बजट था और चुनाव में उन्होंने हाथ खोलकर पैसा खर्च किया। हालाँकि, अधिकतर लोग वैभव की जीत की संभावना बहुत कम बता रहे हैं।

विभिन्न क्षेत्रों में जनता का समर्थन मिलने के बावजूद कांग्रेस भारी आर्थिक तंगी से गुजर रही है, जिससे चुनाव लड़ना मुश्किल हो रहा है और यही कारण है कि, संकट में धिरी पार्टी की मदद करने के लिए दोनो पूर्व मुख्यमंत्रियों को एक बार फिर नियुक्त किया गया है।

सवाल है कि वी.आई.पी. सीटों के लिए पैसे का जुगाड़ क्यों किया गया है और

साधारण सीटों को उम्मीदवारों के भाग्य पर क्यों छोड़ दिया गया है। जबकि, पार्टी के बाकी प्रत्याशियों को चुनाव का खर्च वहन करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

उदाहरण के लिए पुरी (उड़ीसा) में कांग्रेस प्रत्याशी सुचरिता मोहनन्ती ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा कि, वो अपनी उम्मीदवारी वापस ले रही हैं क्योंकि, ए.आई.सी.सी. प्रभारी अजय कुमार ने उनसे कहा कि, फण्ड का इंजांम उन्हें स्वयं करना होगा और ए.आई.सी.सी. उनकी कोई मदद नहीं कर सकती।

सुचरिता ने अंततः अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली क्योंकि उनके पति व वे स्वयं पत्रकार हैं और भाजपा तथा बी.जे.डी. के धुरंधरों के खिलाफ चुनाव लड़ने का खर्च वहन करना उनके बस की बात नहीं है।

केजरीवाल पर खालिस्तान से 134 करोड़ रु. लेने का आरोप

दिल्ली के उपराज्यपाल ने खालिस्तानी आतंकी को छोड़ने की एवज में पैसे लेने के इन आरोपों की जांच के लिए एन.आई.ए. से सिफारिश की

नई दिल्ली, 6 मई। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कथित शराब घोटाले में लगे आरोपों की वजह से

जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उप राज्यपाल वी.के. सक्सेना ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एन.आई.ए.) से भी जांच की सिफारिश कर दी गई है। बताया जा रहा है कि, राजभवन को शिकायत

उप राज्यपाल को केजरीवाल के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है, उसी के आधार पर उप राज्यपाल ने जांच कराने का फैसला किया है।

केजरीवाल पर आरोप है कि, उन्होंने जेल में बंद आतंकी देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई की एवज में खालिस्तानी संगठन, सिख फॉर जस्टिस से पैसे लिये हैं।

मिली थी जिसमें केजरीवाल पर खालिस्तानी आतंकी संगठन से पैसा लेने का आरोप है। दावा किया गया है कि केजरीवाल ने प्रतिबंधित आतंकी पार्टी ने देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई के लिए चरमपंथी खालिस्तानी समूहों (एस.एफ.जे.) से पैसा लिया था।

केंद्रीय गृह सचिव को लिखे लेटर में उपराज्यपाल सचिवालय ने कहा कि सक्सेना को शिकायत मिली थी कि केजरीवाल को आगुआई वाली पार्टी ने देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई के लिए चरमपंथी खालिस्तानी समूहों

से 1.6 करोड़ डॉलर की फंडिंग ली थी। राजभवन की ओर से कहा गया कि शिकायतकर्ता की ओर से दिए गए इलेक्ट्रॉनिक समूहों की फॉरेंसिक जांच और पूरे मामले की पड़ताल की आवश्यकता है। केजरीवाल को

कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लाँड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। वह तब से ही जेल में बंद है।

हाल ही में खालिस्तानी आतंकी पन्तू ने भी एक वीडियो जारी करके दिल्ली के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे। पन्तू ने दावा किया था कि उसके संगठन ने 2014 से 2022 के बीच आम आदमी पार्टी को 16 मिलियन डॉलर (करीब 134 करोड़ रुपए) दिए।

दो आतंकीयों का स्कैंज जारी

श्रीनगर, 6 मई। जम्मू-कश्मीर के पुंछ में पिछले हफ्ते भारतीय वायु सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ। सुझा बलों ने इसे अंजाम देने वाले 2 पाकिस्तानी आतंकीवादियों के स्केच जारी किए हैं। साथ ही उनकी गिरफ्तारी को लेकर सूचना देने वाले को 20 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा हुई है। मालूम हो कि शनिवार शाम को पुंछ में शाहसितार के पास दहशतगर्दों ने वायुसेना के काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें वायु सेना के जवान कॉर्पोरल विक्की पहाड़ शहीद हो गए। साथ ही, 4 अन्य सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। इसके बाद से सशस्त्र बल शाहसितार इलाके में बड़ा तलाशी अभियान चला रहे हैं।

महाराष्ट्र में तूफानी प्रचार में जुटे शरद पवार की तबीयत खराब हुई

डॉक्टरों की सख्त सलाह के बाद शरद पवार को अपने सभी प्रचार कार्यक्रम कैंसिल करने पड़े

मुंबई, 6 मई। महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले शरद पवार चुनाव में काफी मेहनत कर रहे हैं। बारामती, बीड, सतारा समेत महाराष्ट्र की तमाम सीटों पर वह दिन-रात प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच उनकी सेहत खराब हो गई है। इसके चलते डॉक्टरों ने सीनियर पवार को आराम करने की सलाह दी है। इसकी वजह से सोमवार के उनके सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। डॉक्टरों से सलाह के बाद पवार और उनके परिवार ने यह फैसला लिया है। अब प्रचार की पूरी कमान खुद सुप्रिया सुले और रोहित पवार के हाथों में है। यही नहीं अब उनकी पार्टी

बारामती, बीड, सतारा समेत महाराष्ट्र की तमाम सीटों पर शरद पवार दिन-रात प्रचार कर रहे थे, लेकिन इस बीच उनकी सेहत खराब हो गई है।

अब प्रचार की पूरी कमान खुद सुप्रिया सुले और उनके पोते रोहित पवार के हाथों में आ गई है।

एन.सी.पी.-शरद चंद्र पवार के नेता भी अपील कर रहे हैं कि वह आराम करें। बीड लोकसभा सीट से एनसीपी-शरद पवार के कैंडिडेट बजरंग सोनवने ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि शरद पवार को आराम करना चाहिए। उन्होंने लिखा, साहेब, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। विधायक और शरद

पवार के पोते रोहित पवार ने कहा कि सीनियर पवार बीते 20 दिनों से 4 ही घंटे सो रहे हैं। चुनाव में खूब मेहनत करने के चलते थकान हुई है और स्वास्थ्य थोड़ा खराब है।

शरद पवार ने कल बारामती में भी एक रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की थी कि

वे इस बार ऐतिहासिक जनादेश दें। अब शरद पवार की सेहत को लेकर बीड के उम्मीदवार बजरंग सोनवने ने लिखा, सर, कृपया अपनी सेहत का ख्याल रखें। जीत आपके चरणों में है। बस आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आपको तो बारिश भी नहीं रोक सकी थी। सोनवने ने लिखा कि आपकी सेहत खराब है। आपने तो बीते 60 सालों में कई चुनाव देखे हैं। कई चुनाव तो आपके ही नाम पर बीते दशकों में हुए हैं। आपके नेतृत्व में महाराष्ट्र के लोगों ने दिल्ली की चुनौती को हराया है। लेकिन आप ध्यान दें कि इस लड़ाई को हमारे ऊपर छोड़िए। आप सिर्फ सेहत का ख्याल रखें।

डी.के. शिवकुमार ने कार्यकर्ता को जड़ा थप्पड़

बैंगलूर, 6 मई। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वह एक शख्स को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार को हावेरी में चुनावी रैली के दौरान का यह वाकया है। शिवकुमार ने जिस व्यक्ति को थप्पड़ मारा, वह कांग्रेस कार्यकर्ता बताया जा रहा है। यह वीडियो क्लिप बीजेपी के कई सोशल मीडिया हैंडलस से शेयर किया गया है। साथ ही, अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह के व्यवहार के लिए कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। दरअसल, डीके शिवकुमार हावेरी में धावाड़ से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार विनोद अस्तुती के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने चुनावी रैली का नेतृत्व किया।

वायरल वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि डीके शिवकुमार कार से बाहर निकलते हैं। इस दौरान लोगों की भीड़ और कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें घेर लेते हैं। साथ वे जोर-जोर से नारे लगाने लगते हैं।

कोलकाता, 6 मई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर राजभवन में ही काम करने वाली कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीम भी गठित कर दी है। रविवार को संवैधानिक सुरक्षा का हवाला देते हुए राज्यपाल ने राजभवन के कर्मचारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे डायरेक्ट या फिर फोन पर किसी तरह का जवाब ना दें। इसके अलावा पुलिस से भी बात करने से बचें। राज्यपाल के इस आदेश के बाद पीड़िता ने सवाल किया है कि आखिर राज्यपाल इतना डरे क्यों हैं कि लोकसभा उम्मीदवार विनोद अस्तुती के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने चुनावी रैली का नेतृत्व किया।

बता दें कि रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राज्यपाल ने कहा था, इस मामले में किसी तरह का अनिर्णय या ऑफ लाइन बयान देने से बचें। उन्होंने यह भी

‘राज्यपाल घबरा क्यों रहे हैं जो उन्हें स्पेशल पावर्स को ढाल बनाना पड़ रहा है’

प. बंगाल के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने कहा कि, राज्यपाल अपनी स्पेशल पावर्स का खुल्लम-खुल्ला इस्तेमाल कर जांच में बाधा डाल रहे हैं

गौरतलब है कि, राज्यपाल ने रविवार को संवैधानिक सुरक्षा का हवाला देते हुए राजभवन के कर्मचारियों को निर्देश जारी किए हैं कि, वे डायरेक्ट या फिर फोन पर किसी तरह का जवाब ना दें। इसके अलावा पुलिस से भी बात करने से बचें।

कहा था कि पुलिस को भी नजरअंदाज करें। तीन दिन पहले ही गुस्वार को एक महिला कर्मचारी ने पुलिस के पास राज्यपाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी।

पीड़िता ने कहा कि वह राज्यपाल साथ लाइ डिटेक्टर टेस्ट में भी बैठने को तैयार है। उन्होंने कहा, अगर राज्यपाल निर्दोष हैं तो वह भाग क्यों रहे हैं। उन्होंने दो बार मेरा उत्पीड़न किया। सच, सच ही रहेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बड़ी बात है

कि सर के अंदर दूसरी महिलाओं से छेड़छाड़ करने की इम्तत है और वह साधारण महिलाओं के साथ ऐसा करते हैं।

पीड़िता ने कहा कि उसका परिवार इतना सक्षम नहीं है कि लंबी कानूनी लड़ाई लड़ सके। इसके अलावा उसकी नौकरी भी चली गई है। परिवार की सामाजिक छवि को भी धक्का लगा है। लोग उससे ही सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि मैं एक हारी हुई जंग लड़ रही हूँ।

रायबरेली से...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) के लिए अयोग्य हैं। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है, लेकिन उसने कोई निर्णय नहीं दिया है। सजा पर रोक में, चुनाव लड़ने की अनुमति शामिल नहीं है। पाण्डे ने यह भी कहा कि, 2006 में राहुल ने घोषित किया था कि, उनकी नागरिकता ब्रिटिश है। पाण्डे ने कहा, "ब्रिटिश नागरिक होने के कारण, संवैधानिक रूप से राहुल चुनाव नहीं लड़ सकते।" उन्होंने बताया कि, रिटर्निंग ऑफिसर ने उनकी शिकायत स्वीकार कर ली है।

कांग्रेस नेता अजयपाल सिंह ने एक वक्तुव्य जारी किया कि, राहुल गांधी का नामांकन पहले भी वैध माना गया था और अभी भी वैध है।

चंद्रबाबू नायडू ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सार्वजनिक रैली में इसके फायदों के बारे में स्पष्ट करना शुरू कर दिया है। इस पर जोर देते हुए कहा है कि यह एक भूमि पर कब्जों को रोकना, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और उनके पार्टी नेता यह तक कह रहे हैं कि वर्ष 2014 से 2019 तक की अवधि में रहे टी.डी.पी. शानस के दौरान अमरावती में राजधानी बनाने के लिए जो भूमि कथित रूप से हड़पी गई थी, वह जांच के दायरे में आ जाएगी, इसलिए विपक्षी पार्टियों इस एक्ट का विरोध कर रही है।

लेण्ड टाइटलिंग एक्ट पर झूठा चुनाव प्रचार करने को लेकर नायडू और उसके पुत्र लोकेश के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं।

आरक्षण पर भ्रम फैलाने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत

हैदराबाद/नई दिल्ली 6 मई (वार्ता) रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा देश में आरक्षण हटाए जाने के भ्रामक प्रचार, बयानबाजी एवं तथ्यहीन आरोप के विरोध में चुनाव आयोग में लिखित शिकायत भेजकर विधिसम्मत कार्यवाही करने की मांग की। अठावले ने दावा

किया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संविधान निर्माता बाबासाहेब डॉ भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और बाबासाहेब के सपनों का भारत निर्माण करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विगत दस वर्षों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार ने एससी, एस्टी, ओबीसी सहित समाज के वंचित, शोषित व अन्य वर्गों के लोगों के कल्याण व उत्थान के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं। चुनाव आयोग को दर्ज कराया गया शिकायत में आठवले ने कहा कि विगत पांच वर्षों, 2024 को तेलंगना के आदिलाबाद लोकसभा के निर्मल क्षेत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संबोधित कर रहे थे।

‘मैं आरक्षण के लिये सुप्रीम कोर्ट...’

(प्रथम पृष्ठ का शेष) की जरूरत है, हम उतना देंगे। लोकसभा चुनावों के लिए भारी चुनाव प्रचार के बीच राहुल ने ये टिप्पणियां की हैं। आरक्षण के मुद्दे पर एन.डी.ए. व इण्डिया गठबंधन के बीच भारी बहस छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस मुस्लिमों को लाभान्वित करने के लिए पिछड़े वर्गों को मिले आरक्षण से छेड़छाड़ करना चाहती है। कांग्रेस ने इन आरोपों का खण्डन किया है।

गुजरात के बनासकांठा में आयोजित एक रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि "मैं कांग्रेस के शहजादे के साथ ही उनकी पार्टी और उनके समर्थकों को चुनौती देता हूँ कि ये यह घोषणा करके दिखाएं कि वे धर्म के नाम पर आरक्षण का दुरुपयोग नहीं करेंगे और ना ही संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे अथवा धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं देंगे।" गांधी ने कहा कि आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों की खबरें मीडिया की न्यूज़ में नहीं आती। उन्होंने कहा कि "आपके बच्चों से बलात्कार होते हैं, आपकी ज़मीन छीन ली जाती है, लेकिन मीडिया इसकी खबरें नहीं देता। उसका एक कारण है क्योंकि इन मीडिया कम्पनियों में कोई आदिवासी नहीं है।" गांधी ने कहा कि "90 नौकरशाह देश की सरकार चलाते हैं। वे बजट आवंटित करते हैं।

इन 90 में से मात्र एक आदिवासी है, तीन पिछड़े वर्ग से हैं और तीन दलित समुदाय से हैं। आपके लोग ना तो मीडिया

राहुल गांधी ने आगे यह कहा, 90 प्रतिशत अफसर सरकार चलाते हैं, उनमें एक आदिवासी है, तीन बैंकवर्डी व तीन दलित हैं और वहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या मीडिया में इन जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है। हम (कांग्रेसी) यह सब बदलना चाहते हैं, इसीलिये जातिगत व आर्थिक सर्वे करवाना चाहते हैं।

मैं हैं और ना ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। हम इसे बदलना चाहते हैं। इसीलिए हमने जातिगत जनगणना और इकोनॉमिक सर्वे करवाने का निर्णय लिया है।" गांधी ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्ज माफी के रूप में राहत प्रदान करने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने जनसमूह से कहा कि ये हमारी गारन्टियां हैं। ये आपका जीवन बदल देंगी।

रतलाम में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग है। कांग्रेस ने यहां से पूर्व सांसद एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि अनीता नागर सिंह चौहान भाजपा प्रत्याशी हैं। भाजपा ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी रतलाम सीट पर विजय प्राप्त की थी।

जे.पी. नड्डा व मीडिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) गया है। बल्कि मुसलमानों को राक्षस बताने की कोशिश की गई है।

कांग्रेस को सुझाव का पलटवार करते हुए कि भाजपा संविधान में बदलाव करने के लिए 400 लोकसभा सीटें चाहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर षडयंत्र करने का आरोप लगाया और कहा कि एस.सी., एस.टी. तथा ओ.बी.सी. के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं को धोखे से अल्पसंख्यक मुसलमानों को देना चाहती है। कर्नाटक में भाजपा के वीडियो से प्रतीत होता है कि यह प्रधान मंत्री के कथन पर बनाया गया है। कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग यह आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है कि, कांग्रेस को एक धर्म विशेष का पक्षधर और एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. को वंचित करने वाली पार्टी के रूप चित्रित करने वाले वीडियो से आदर्श चुनाव आयोग संहिता का उल्लंघन हुआ है। कांग्रेस की शिकायत में प्रधानमंत्री के पूर्व के उस अनुचित दावे की भी जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में अवैधानिक साधनों के माध्यम से मुस्लिमों को आरक्षण दिया। कांग्रेस की शिकायत में कहा गया है कि "वर्ष 1962 में कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय की कुछ निश्चित जातियों को ओ.बी.सी. सूची में शामिल किया था। उन्हें धार्मिक आधार पर शामिल नहीं बल्कि आर्थिक और पिछड़ेपन के आधार पर ओ.बी.सी. सूची में शामिल किया गया था। वह जे.डी. (एस) सरकार ही थी, जो कि अब भाजपा की सहयोगी है, जिसने वर्ष 1994 में इस कोटा को सभी मुस्लिम समुदायों के लिए विस्तृत कर दिया था।" तथापि, कर्नाटक उन 14 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में शामिल है जहां मुस्लिम समुदाय ओ.बी.सी. लिस्ट में शामिल है। इन राज्यों में प्रधानमंत्री का गृह राज्य गुजरात भी शामिल है।

‘नीट पेपर ...’

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सिर्फ बातें कर रही है, पर युवा वर्ग व उनके परिजनों के जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं कर पाई है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस वादा करती है कि अगर सरकार आई तो युवा वर्ग को राहत देने के खिलाफ पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाएंगी। हमारी गारंटी है कि युवा वर्ग को स्वस्थ व संपार्श्व माहौल प्रदान किया जाए।

SBI
एक परिवार का बैंक

सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग

अधिक से अधिक लाभ डिजिटल आसानी के साथ

एसबीआई करंट अकाउंट खोलिए और पाइए एक रुपये की पीओएस मशीन और क्यूआर कोड अपने बिजनेस के लिए

#SolidBankKiSolidBacking

अपने बिजनेस को यशस्व बनाए रखें और अनुकूलित वसाहतों के साथ आपके उद्योग के लिए आवश्यकता के अनुसार पैकेजिंग

क्यूआर कोड और पीओएस के माध्यम से क्लैट-मुक्त नकद कलेक्शन

रिपयर्सनी पीओएस के साथ विविध प्रकार के प्रीमियम पार्स, आने, सीएमपी सेवाएं एवं और भी बहुत कुछ

पीओएस क्लिप और अन्य सुविधाएं पर 100% तक माफ़ी और बुनियादी किस्मों पर अत्यंत कमी की बेहतरीन एसबीआई दरें

अपना एसबीआई करंट अकाउंट खोलने के लिए, विज़िट करें: yonobusiness.sbi

सहायता के लिए, 1800 1234 2100 पर कॉल करें या bank.sbi रिजिट करें

हमें यहाँ फॉलो करें